



**MPESB 2024**  
**Animal Husbandry and Dairy Technology Diploma Entrance Test (ADDET) , Pre-Veterinary  
Fishery Entrance Test (PVFT) - 2023- Reports**

[View Challenged Items/ शिकायती प्रश्न देखे](#)   [View Report](#)   [View QP](#)   [View Candidate Response](#)   [Print Objection](#)   [View Candidate Question](#)

Moderator loge

[Print](#)

|               |  |
|---------------|--|
| Testdate      | <input type="text" value="27 Jul 2023 ▾"/> |
| TestSlot      | <input type="text" value="Shift 1 ▾"/>     |
| <b>Submit</b> |  |

Q.No: 1 There is \_\_\_\_\_ overlapping is sigma bond formation between s and px, or py orbital or px and py orbital, if z axis is chosen as inter nuclear axis  
**2407577**

\_\_\_\_\_ अतिव्यापी है, s और px, या py कक्षीय या px और py कक्षीय के बीच सिम्मा बंध निर्माण है, यदि z अक्ष को अंतर नाभिकीय अक्ष के रूप में चुना जाता है

**0**

**A**

**0**

**Partial**

**B**

**आंशिक**

**Complete**

**C**

**पूर्ण**

**Symmetrical**

**D**

**सममित**

Correct Ans : **A**

Subject : **Chemistry**

Q.No: 2 Which of following conditions are associated with formation of intra-molecular hydrogen bonding ?  
**2407590**

- I. Hydrogen bonding should lead to formation of Six-membered ring including H-atom.
- II. Molecule should be planer.
- III. Take place between different molecules of same or different compounds.

निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति इंट्रा-मॉलिक्युलर हाइड्रोजन बंध के निर्माण से जुड़ी है?

- I. हाइड्रोजन बंध से H-परमाणु सहित छह-सदस्यीय वलय का निर्माण होना चाहिए।
- II. अणु प्लानर होना चाहिए
- III. समान या विभिन्न यौगिकों के विभिन्न अणुओं के बीच होता है

**Only II**

**A**

**केवल II**

**Both (I) and (III)**

**B**

**(I) और (III) दोनों**

**Only I**

**C**

**केवल I**

**Both (II) and (III)**

**D**

**(I) और (II) दोनों**

Correct Ans : **D**

Subject : **Chemistry**

Q.No: 3 Choose the incorrect statement is regarding to Lewis langmuir concept of covalent bond  
**2407597**

सहसंयोजक बंधन की लूँस लैगम्यूर सिद्धांत के संबंध में गलत कथन चुनें-

**It can explain shapes of molecules containing covalent bond**

A

यह सहसंयोजक बंधन वाले अणुओं के आकार की व्याख्या कर सकता है

**It could not explain the release of energy during formation of covalent bond**

B

यह सहसंयोजक बंधन के निर्माण के दौरान ऊर्जा की मुक्ति की व्याख्या नहीं कर सकता है

C

It cannot explain how atoms are held together in molecules like  $H_2$ ,  $Cl_2$ , etc.

यह स्पष्ट नहीं कर सकता कि  $H_2$ ,  $Cl_2$ , आदि जैसे अणुओं में परमाणु एक साथ कैसे बंधे रहते हैं

**It could not explain shapes of molecules containing covalent bond**

D

यह सहसंयोजक बंधन वाले अणुओं के आकार की व्याख्या नहीं कर सकता है

Correct Ans : A

Subject : Chemistry

Q.No: 4  
**2407714** The hydrogen ion concentration of a  $10^{-8}$ M HCl aqueous solution at 298K is:

298K पर  $10^{-8}$ M HCl जलीय घोल की हाइड्रोजन आयन सांदर्भता है:

$1.09 \times 10^{-9}$ M

A

$1.09 \times 10^{-9}$ M

$9.78 \times 10^{-9}$ M

B

$9.78 \times 10^{-9}$ M

$1.05 \times 10^{-7}$ M

C

$1.05 \times 10^{-7}$ M

$1.0 \times 10^{-6}$ M

D

$1.0 \times 10^{-6}$ M

Correct Ans : C

Subject : Chemistry

Q.No: 5 If concentration of product is increased than the rate of reaction is  
**2407746**

यदि उत्पाद की सांदर्भता बढ़ा दी जाती है तो प्रतिक्रिया की दर \_\_\_\_\_ हो जाती है

**Increase**

A

ज्यादा

**Decrease**

B

कम

**Same**

C

बराबर

**Can increase or decrease**

D

बढ़ या घट सकती है

Correct Ans : **B**

Subject : **Chemistry**

Q.No: 6 Which is not the work done under constant temperature in closed system

**2407759**

बंद निकाय में स्थिर तापमान में किया गया कार्य कौन सा नहीं है-

$$W_{1-2} = -PV/n \left( \frac{P_1}{P_2} \right)$$

**A**

$$W_{1-2} = -PV/n \left( \frac{P_1}{P_2} \right)$$

$$W_{1-2} = mRT/n \left( \frac{P_1}{P_2} \right)$$

**B**

$$W_{1-2} = mRT/n \left( \frac{P_1}{P_2} \right)$$

$$W_{1-2} = mRT/n \left( \frac{V_2}{V_1} \right)$$

**C**

$$W_{1-2} = mRT/n \left( \frac{V_2}{V_1} \right)$$

$$W_{1-2} = P_1 V_1 / n \left( \frac{P_1}{P_2} \right)$$

**D**

$$W_{1-2} = P_1 V_1 / n \left( \frac{P_1}{P_2} \right)$$

Correct Ans : **A**

Subject : **Chemistry**

Q.No: 7 When the system is in equilibrium, the entropy of the system and the change in entropy is \_\_\_\_\_ respectively.

**2407761**

जब निकाय साम्यावस्था में होता है, तब निकाय की एन्ट्रॉपी और एन्ट्रॉपी में परिवर्तन क्रमशः \_\_\_\_\_ होता है।

minimum and  $\Delta S > 0$

**A**

न्यूनतम और  $\Delta S > 0$

maximum and  $\Delta S < 0$

**B**

न्यूनतम और  $\Delta S < 0$

maximum and  $\Delta S = 0$

**C**

अधिकतम और  $\Delta S = 0$

minimum and  $\Delta S = 0$

**D**

अधिकतम और  $\Delta S = 0$

Correct Ans : **C**

Subject : **Chemistry**

Q.No: 8 The number of Bravais space lattices in a cubic system is\_\_\_\_\_

**2407980**

क्यूबिक सिस्टम में ब्रावाइस स्पेस लैटिस की संख्या \_\_\_\_\_ होती है।

**3 (Simple, face-centered, and body-centered)**

**A**

**3 (सरल, चेहरा-केंद्रित, और शरीर-केंद्रित)**

**3 (Simple and body-centered tetragonal prism)**

**B**

**3 (सरल और शरीर-केंद्रित चतुष्कोणीय प्रिज्म)**

**4 (Rectangular and body-centered, rectangular prism, rhombic and body-centered)**

**C**

**4 (आयताकार और शरीर-केंद्रित, आयताकार प्रिज्म, समचतुर्भुज और शरीर-केंद्रित)**

**2 (Rectangular and body-centered, rectangular prism)**

**D**

**2 (आयताकार और शरीर-केंद्रित, आयताकार प्रिज्म)**

Correct Ans : **A**

Subject : **Chemistry**

Q.No: 9 The spacing of the three lines (1, 0, 0), (1, 1, 0) and, (1, 1, 1) of the simple cubic lattice can be calculated

**2407984**

साधारण घन जालक की तीन पंक्तियों (1, 0, 0), (1, 1, 0) और, (1, 1, 1) की दूरी की गणना की जा सकती है:

$$d(100) : d(110) : d(111) = 1 : 1.414 : 0.577$$

**A**

$$d(100) : d(110) : d(111) = 1 : 1.414 : 0.577$$

$$d(100) : d(110) : d(111) = 1 : 0.707 : 0.577$$

**B**

$$d(100) : d(110) : d(111) = 1 : 0.707 : 0.577$$

$$d(100) : d(110) : d(111) = 1 : 0.707 : 0.577$$

**C**

$$d(100) : d(110) : d(111) = 1 : 0.707 : 0.577$$

$$d(100) : d(110) : d(111) = 1 : 0.707 : 1.154$$

**D**

$$d(100) : d(110) : d(111) = 1 : 0.707 : 1.154$$

Correct Ans : **B**

Subject : **Chemistry**

Q.No: 10 For a reaction,  $2 A + B \rightarrow 3Z$  if the rate consumption of A is  $2 \times 10^{-4} \text{ mol dm}^{-3} \text{ s}^{-1}$ . The rate of formation of Z (in  $\text{mol dm}^{-3} \text{ s}^{-1}$ ) will be

**2408433**

एक प्रतिक्रिया के लिए  $2 A + B \rightarrow 3Z$  यदि A की दर खपत  $2 \times 10^{-4} \text{ mol dm}^{-3} \text{ s}^{-1}$  है। Z के बनने की दर ( $\text{mol dm}^{-3} \text{ s}^{-1}$  में) होगी

$$3 \times 10^{-4}$$

**A**

$$3 \times 10^{-4}$$

$$\frac{4}{3} \times 10^{-4}$$

**B**

$$\frac{4}{3} \times 10^{-4}$$

**C**

$$2 \times 10^{-4}$$

$2 \times 10^{-4}$

$4 \times 10^{-4}$

D

$4 \times 10^{-4}$

Correct Ans : A

Subject : Chemistry

Q.No: 11 Coordination compounds have great importance in biological systems. In this context, which of the following statements is incorrect?  
**2409045**

जैविक निकायों में उपसहस्रयोजन यौगिकों का बहुत महत्व होता है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौनसा कथन असत्य है ?

Cyanocobalamin is vitamin B<sub>12</sub> and contains cobalt

A

सायनोकोबालैमीन विटामिन B<sub>12</sub> है जिसमें कोबाल्ट होता है।

**Haemoglobin is the red pigment of blood and contains iron**

B

हीमाग्लोबिन रक्त का लाल रंग का वर्णक है जिसमें आयरन होता है।

**Chlorophylls are green pigments in plants and contain calcium**

C

क्लोरोफिल एक हरे रंग का वर्णक है जिसमें कैल्शियम होता है।

**Carboxypeptidase-A is an enzyme and contains zinc**

D

कार्बोक्सिपेप्टाइडेस -A एक एन्जाइम है जिसमें जिंक होता है।

Correct Ans : C

Subject : Chemistry

Q.No: 12 In which of the following octahedral complexes of Co (at. no. 27), will the magnitude of  $\Delta_0$  be the highest?  
**2409055**

Co (परमाणु क्रमांक 27) के निम्न अष्टफलकीय संकुलों में किसके लिए  $\Delta_0$  का परिमाण सर्वाधिक होगा?

[Co(CN)<sub>6</sub>]<sup>3-</sup>

A

[Co(CN)<sub>6</sub>]<sup>3-</sup>

[Co(C<sub>2</sub>O<sub>4</sub>)<sub>3</sub>]<sup>3-</sup>

B

[Co(C<sub>2</sub>O<sub>4</sub>)<sub>3</sub>]<sup>3-</sup>

[Co(H<sub>2</sub>O)<sub>6</sub>]<sup>3+</sup>

C

[Co(H<sub>2</sub>O)<sub>6</sub>]<sup>3+</sup>

[Co(NH<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]<sup>3+</sup>

D

[Co(NH<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]<sup>3+</sup>

Correct Ans : A

Subject : Chemistry

Q.No: 13 Which sulphides are not soluble only in aqua-regia?

**2409110**

कोनसा सल्फाइड केवल अम्ल राज (aqua-regia) में ही घुलनशील नहीं हैं-

**NiS**

A

**NiS**

**HgS**

B

**HgS**

**CoS**

C

**CoS**

**CdS**

D

**CdS**

Correct Ans : **D**

Subject : **Chemistry**

Q.No: 14 In qualitative analysis, Cd is under -

**2409112**

गुणात्मक विश्लेषण में Cd किस समूह में उपस्थित है ?

**I group**

A

**I समूह**

**II group**

B

**II समूह**

**III group**

C

**III समूह**

**IV group**

D

**IV समूह**

Correct Ans : **B**

Subject : **Chemistry**

Q.No: 15 What is green vitriol?

**2409117**

हरा कसीस (हरा थोथा) क्या हैं?

$\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$

A

$\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$

$(\text{NH}_4)_2 \text{SO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$

B

$(\text{NH}_4)_2 \text{SO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$

$\text{K}_2\text{SO}_4$

C

$\text{K}_2\text{SO}_4$

D

$\text{Na}_2\text{SO}_4$

$\text{Na}_2\text{SO}_4$

Correct Ans : A

Subject : Chemistry

Q.No: 16 The reaction of chlorine on carboxylic acids to form alpha chloro acids is called  
**2409259**

अल्फा क्लोरो एसिड बनाने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड पर क्लोरीन की प्रतिक्रिया को कहा जाता है:

**Hunsdiecker reaction**

A

हुण्डीकर अभिक्रिया

**Hell-Volhard-Zelinsky reaction**

B

हेल-वॉल्हार्ड-जेलिस्की अभिक्रिया

**Hoffmann mustard oil reaction**

C

हॉफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया

**Rosenmund reaction**

D

रोजनमुण्ड अभिक्रिया

Correct Ans : B

Subject : Chemistry

Q.No: 17 Aqueous formic acid solution cannot be fractionated because formic acid  
**2409266**

फॉर्मिक अम्ल के जलीय विलयन को आसवित नहीं किया जा सकता है क्योंकि फॉर्मिक अम्ल

**Is miscible with water in all proportion**

A

जल में सभी अनुपात में मिश्रणीय है

**Forms azeotrope with water**

B

जल के साथ स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाता है

Boils at 100.5°C

C

100.5°C पर उबलता है

**Is a pungent corrosive liquid**

D

तीव्र संक्षरक द्रव है

Correct Ans : B

Subject : Chemistry

Q.No: 18 Reaction of methylamine and acetyl chloride is similar to the reaction of aniline with:  
**2409299**

मेथिल ऐमीन व एसटिल क्लोराइड की अभिक्रिया तथा ऐनिलीन व \_\_\_\_\_ की अभिक्रिया एक सी है:

**Carbonyl chloride**

A

कार्बोनिल क्लोराइड

**Methyl chloride**

B

मेथिल क्लोराइड

C

**Bromine water**

ब्रोमीन जल

**Acetic anhydride**

**D**

एसिटिक ऐनहाइड्राइड

Correct Ans : **D**

Subject : **Chemistry**


Q.No: 19 Schotten-Baumann reaction is not possible with:

**2409302**



शॉट्टन बौमान अभिक्रिया निम्न के साथ सम्भव नहीं है:





**A**




**B**



**C**



**D**



Correct Ans : **D**

Subject : **Chemistry**

Q.No: 20 Which of the following diseases is due to the deficiency of vitamin A?

**2409315**

निम्नलिखित में से कौनसा रोग विटामिन A की कमी से होता है?

**Scurvy**

**A**

स्कर्वी

**Nightblindness**

**B**

रतौधी

**Beri-beri**

**C**

बेरीबेरी

**Anemia**

**D**

रक्ताल्पता

Correct Ans : **B**

Subject : **Chemistry**

Q.No: 21 All the following IUPAC names are correct except.....

**2409415**

निम्नलिखित सभी IUPAC नाम सही हैं सिवाय .....

**A**

**1-chloro-1-ethoxy propane**

**1-क्लोरो-1-एथाक्सी प्रोपेन**

**1-amino-1-ethoxypropane**

**B**

**1-एमीनो-1-एथॉक्सीप्रोपेन**

**1-ethoxy-2-propanol**

**C**

**1-एथॉक्सी-2-प्रोपेनोल**

**1-ethoxy-1-propanamine**

**D**

**1-एथॉक्सी-1-प्रोपेनोइन**

Correct Ans : **B**

Subject : **Chemistry**

Q.No: 22 How many carbons are in simplest alkyne having two side chains ?

**2409418**

दो शाखित शृंखला रखने वाली सरलतम एल्काइन में कितने कार्बन उपस्थित होते हैं ?

**5**

**A**

**5**

**6**

**B**

**6**

**7**

**C**

**7**

**8**

**D**

**8**

Correct Ans : **B**

Subject : **Chemistry**

Q.No: 23 The least number of carbon atoms for an alkane to show stereoisomerism is -

**2409444**

एल्केन के त्रिविम समावयवता दर्शाने के लिए उसमें न्यूनतम कितने कार्बन परमाणु होने चाहिये -

**2**

**A**

**2**

**3**

**B**

**3**

**4**

**C**

**4**

**5**

**D**

**5**


Correct Ans : **A**

Subject : **Chemistry**



Q.No: 24 Which of the following is an isomer of diethyl ether?

**2409447**


निम्न में डाइएथिल ईथर का समावयवी कौन सा है?




A




B



C



D




Correct Ans : A



Subject : Chemistry

Q.No: 25 Which one of the following is not an acid salt?  
**2409597**



निम्न में से कौन सा अम्लीय लवण नहीं है -





A




B



C



D



Correct Ans : A

Subject : Chemistry

Q.No: 26 When  $\text{SO}_2$  gas is passed into an acidified  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$  solution, the oxidation no. of chromium change from -

जब  $\text{SO}_2$  अम्लीय  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$  के विलयन में प्रवाहित की जाती है, तो Cr की ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तित होती है

+ 3 to + 6

A

+ 3 से + 6

+ 6 to + 3

B

+ 6 से + 3

+ 12 to + 3

C

+ 12 से + 3

D + 6 to - 3

+ 6 से - 3

Correct Ans : **B**

Subject : **Chemistry**


Q.No: 27 Bleaching powder on standing forms mixture of -

**2409611**



विरजक वूर्ण पड़ा रहने पर मिश्रण बनाता है -





A




B



C



D



Correct Ans : **C**

Subject : **Chemistry**

Q.No: 28 Which of the following is used for the extraction of cadmium from cadmium sulphite?

**2409655**

केडमियम सल्फाइट से केडमियम के निष्कर्षण के लिए निम्न में से किसे प्रयुक्त किया जाता है -

**Roasting**

A

भर्जन

**Reduction**

B

अपचयन

**Oxidation**

C

आँपसीकरण

**Electrolysis**

D

विद्युत अपघटन

Correct Ans : **B**

Subject : **Chemistry**

Q.No: 29 When a sulphide ore is roasted, the product obtained is usually -

**2409658**

जब सल्फाइट अयस्क का भर्जन किया जाता है तो सामान्यतः प्राप्त उत्पाद है-

**A metal**

A

धातु

B **A sulphite**

सल्फाइट

An oxide

C

ऑक्साइड

A nitride

D

नाइट्राइड

Correct Ans : C

Subject : Chemistry

Q.No: 30 Ionic character of halides of metals (3d-transition series) decreases in the order-  
**2409703**

धातुओं के हैलाइडों के आयनिक गुणों (3d-संक्रमण श्रेणी) का घटता हुआ क्रम है -

M-I > M-Br > M-Cl > M-F

A

M-I > M-Br > M-Cl > M-F

M-Cl > M-Br > M-I > M-F

B

M-Cl > M-Br > M-I > M-F

M-Br > M-Cl > M-F > M-I

C

M-Br > M-Cl > M-F > M-I

M-F > M-Cl > M-Br > M-I

D

M-F > M-Cl > M-Br > M-I

Correct Ans : D

Subject : Chemistry

Q.No: 31 Molecular formula  $C_5H_{12}O$  will show -  
**2409774**

I. Position

II. Optical isomerism

III. Functional isomerism

अणुसूत्र  $C_5H_{12}O$  प्रदर्शित करेगा -

I. स्थिति समावयवता

II. प्रकाशिक समावयवता

III. क्रियात्मक समावयवता

**Only II**

A

केवल II

**Both (I) and (III)**

B

(I) और (III) दोनों

**Both (I) and (II)**

C

(I) और (II) दोनों

**All (I), (II) and (III)**


D

सभी (I), (II) and (III)

Correct Ans : D

Subject : Chemistry

Q.No: 32 The IUPAC name of the  $\begin{array}{c} \text{CH}_3 - \text{CH} - \underset{\underset{\text{CH}_3}{\mid}}{\text{C}} - \underset{\underset{\text{O}}{\parallel}}{\text{C}} - \underset{\underset{\text{CH}_3}{\mid}}{\text{CH}_3} - \text{OH}$  is:



**4-methyl-2-hydroxy-3-pentanone**

A

4-मेथिल-2-हाइड्रोक्सी-3-पेन्टनोन

**2-hydroxy-4-methyl-3-pentanone**

B

2-हाइड्रोक्सी-4-मेथिल-3-पेन्टनोन

**3-hydroxy-3-methyl-2-pentanone**

C

3-हाइड्रोक्सी-3-मेथिल-2-पेन्टनोन

**3-hydroxy-3-methyl-3-pentanone**

D

3-हाइड्रोक्सी-3-मेथिल-3-पेन्टनोन

Correct Ans : **B**

Subject : **Chemistry**

Q.No: 33 What is in the nucleus of an atom?

**2746268**

परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं?

**Only proton**

A

केवल प्रोटॉन

**Proton and neutron**

B

प्रोटॉन और न्यूट्रॉन

**Neutron and electron**

C

न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन

**Only neutron**

D

केवल न्यूट्रॉन

Correct Ans : **B**

Subject : **Chemistry**

Q.No: 34 The atomic number of an element having the valency shell electronic configuration  $4s^2 4p^6$  is-

**2746273**

उस तत्त्व का परमाणु क्रमाक्रमांक बताइए जिसके संयोजकता कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास  $4s^2 4p^6$  है-

**35**

A

**35**

**36**

B

**36**

C

**37**

**37**

**38**

D

**38**

Correct Ans : **B**

Subject : **Chemistry**

Q.No: 35 How many neutrons are there in the parent nucleus which gives N<sup>14</sup> after β- emission and  
**2746296** what is the parent nucleus?

उस पैतृक नाभिक में कितने न्यूट्रोन हैं जो β-उत्सर्जन के बाद N<sup>14</sup> देता है तथा यह पैतृक नाभिक कौन-सा है?

8, C<sup>14</sup>

A

8, C<sup>14</sup>

6, C<sup>12</sup>

B

6, C<sup>12</sup>

4, C<sup>13</sup>

C

4, C<sup>13</sup>

5, C<sup>14</sup>

D

5, C<sup>14</sup>

Correct Ans : **A**

Subject : **Chemistry**

Q.No: 36 The IUPAC name for CH<sub>3</sub>CO-CH<sub>3</sub> is-  
**2746384**

CH<sub>3</sub>CO-CH<sub>3</sub> का IUPAC नाम होगा?

**Dimethyl ketone**

A

डाइमेथिल कीटोन

**Acetone**

B

एसिटोन

**Propanal**

C

प्रोपेनल

**Propanone**

D

प्रोपेनऑन

Correct Ans : **D**

Subject : **Chemistry**

Q.No: 37 Benzyl alcohol is obtained from benzaldehyde by-  
**2746393**

बैंजलडेहाइड (benzaldehyde) से बैंजिल एल्कोहल निम्न के द्वारा प्राप्त होता है-

**Fittig reaction**

A

फिटिंग अभिक्रिया

**Cannizaro reaction**

B

कैनीजारो अभिक्रिया

**Kolbe reaction**

C

कोल्बे अभिक्रिया

**Wurtz reaction**

D

वुर्ट्ज अभिक्रिया

Correct Ans : **B**Subject : **Chemistry**

Q.No: 38 The charring of sugars when treated with concentrated H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> is due to-  
**2746414**

शर्करा को जब सांद्र H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> से अभिकृत करवाया जाता है तो इसकी चारिंग (charring) इस कारण से होती है-

**Oxidation**

A

ऑक्सीकरण

**Reduction**

B

अपचयन

**Dehydration**

C

निर्जलीकरण

**Hydrolysis**

D

जल अपघटन

Correct Ans : **C**Subject : **Chemistry**

Q.No: 39 Iodine test is illustrated by which of the following?  
**2746415**

निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयोडीन परीक्षण प्रदर्शित किया जाता है?

**Polypeptide**

A

पॉलिपेप्टाइड

**Glycogen**

B

ग्लाइकोजन

**Starch**

C

स्टार्च

**Glucose**

D

ग्लूकोज

Correct Ans : **C**Subject : **Chemistry**

Q.No: 40 What is the number of essential amino acids in humans?

**2746416**

मनुष्य में आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या है-

A

**8**

**8**

**10**

**B**

**10**

**18**

**C**

**18**

**20**

**D**

**20**

Correct Ans : **B**

Subject : **Chemistry**

Q.No: 41 From which country the Olympic games started?

**2403441**

ओलंपिक सेलों की शुरुआत किस देश से हुई?

**USA**

**A**

संयुक्त राज्य अमेरिका

**Australia**

**B**

ऑस्ट्रेलिया

**Greece**

**C**

ग्रीस

**France**

**D**

फ्रांस

Correct Ans : **C**

Subject : **General Studies**

Q.No: 42 World Human Rights Day is celebrated on?

**2403457**

विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है?

**16 September**

**A**

**16 सितंबर**

**16 October**

**B**

**16 अक्टूबर**

**26 November**

**C**

**26 नवंबर**

**10 December**

**D**

**10 दिसंबर**

Correct Ans : **D**

Subject : **General Studies**

Q.No: 43 When is the National Voters day celebrated?

**2403458**

राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है?

**25<sup>th</sup> January**

**A**

**25 जनवरी**

**9<sup>th</sup> February**

**B**

**9 फरवरी**

**18<sup>th</sup> December**

**C**

**18 दिसम्बर**

**18<sup>th</sup> November**

**D**

**18 नवंबर**

Correct Ans : **A**

Subject : **General Studies**

Q.No: 44 Narsinghgarh Wildlife Sanctuary is in which district of Madhya Pradesh?

**2407770**

नरसिंहगढ़ वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में है?

**Umaria**

**A**

**उमरिया**

**Rajgarh**

**B**

**राजगढ़**

**Hoshangabad**

**C**

**होशंगाबाद**

**Chhindwara**

**D**

**चिंदवाड़ा**

Correct Ans : **B**

Subject : **General Studies**

Q.No: 45 As per Census 2011, which is the most populated city in Madhya Pradesh?

**2407772**

2011 की जनगणना के अनुसार, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है?

**Indore**

**A**

**इंदौर**

**Bhopal**

**B**

**भोपाल**

**Jabalpur**

**C**

**जबलपुर**

**Gwalior**

**D**

**ग्वालियर**

Correct Ans : **A**

Subject : **General Studies**

Q.No: 46 Which of the following districts does not lie in the Satpura – Maikal ranges?

**2407800**

निम्नलिखित में से कौन सा ज़िला सतपुड़ा-मैकाल श्रेणी में नहीं आता है?

**Chhindwara**

A

ठिंदवाड़ा

**Balaghat**

B

बालाघाट

**Mandla**

C

मंडला

**Panna**

D

पत्ता

Correct Ans : **D**

Subject : **General Studies**

Q.No: 47 In which of the following centuries was the northern Madhya Pradesh conquered by the Delhi Sultanate?

**2407802**

निम्नलिखित में से किस शताब्दी में उत्तरी मध्य प्रदेश पर दिल्ली सल्तनत ने विजय प्राप्त की थी?

10<sup>th</sup>

A

**10 वीं**

11<sup>th</sup>

B

**11 वीं**

12<sup>th</sup>

C

**12 वीं**

13<sup>th</sup>

D

**13 वीं**

Correct Ans : **D**

Subject : **General Studies**

Q.No: 48 In which of the following districts of Madhya Pradesh is the Dhubela Mahal situated?

**2407805**

धुबेला महल मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस ज़िले में स्थित है?

**Singroli**

A

सिंगरोली

**Umariya**

B

उमरिया

**Chhatarpur**

C

छतरपुर

**Bhopal**

D

भोपाल

Correct Ans : **C**

Subject : **General Studies**

Q.No: 49 What was the time period of the 12th Five Year Plan of Madhya Pradesh?  
**2407814**

मध्य प्रदेश की बारहवीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी?

**2009 - 2014**

A

**2009 - 2014**

**2010 - 2015**

B

**2010 - 2015**

**2011 - 2016**

C

**2011 - 2016**

**2012 - 2017**

D

**2012 - 2017**

Correct Ans : **D**

Subject : **General Studies**

Q.No: 50 Hari Krishna Devsare is an eminent -  
**2407823**

हरि कृष्ण देवसारे एक प्रख्यात \_\_\_\_\_ हैं -

**Mathematician**

A

गणितज्ञ

**Writer**

B

लेखक

**Singer**

C

गायक

**Sitarist**

D

सितार वादक

Correct Ans : **B**

Subject : **General Studies**

Q.No: 51 Mrinal Pande is an eminent -  
**2407824**

मृणाल पांडे एक प्रख्यात \_\_\_\_\_ हैं -

**Scientist**

A

वैज्ञानिक

**Journalist**

B

पत्रकार

**Athlete**

C

एथलीट

**Flutist**

D

**बाँसुरी वादिका**

Correct Ans : **B**

Subject : **General Studies**

Q.No: 52 With which of the following organisations does the Madhya Pradesh Government organise the Khajuraho International Film Festival?  
**2407830**

मध्य प्रदेश सरकार निश्चिह्नित में से किस संगठन के साथ खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन करती है?

**Prayaas Production Pvt Ltd**

**A**

प्रयास प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड

**G. R. Films Pvt Ltd**

**B**

जी आर फिल्स प्राइवेट लिमिटेड

**White Reel Productions**

**C**

व्हाइट रील प्रोडक्शंस

**Jha Productions**

**D**

झा प्रोडक्शंस

Correct Ans : **A**

Subject : **General Studies**

Q.No: 53 When was Bhagat Singh hanged to death?  
**2407833**

भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी?

**January 30, 1931**

**A**

**30 जनवरी, 1931**

**February 20, 1931**

**B**

**20 फरवरी, 1931**

**March 23, 1931**

**C**

**23 मार्च, 1931**

**April 24, 1931**

**D**

**24 अप्रैल, 1931**

Correct Ans : **C**

Subject : **General Studies**

Q.No: 54 Who is known as father of Indian Archaeology?  
**2407834**

भारतीय पुरातत्व के पिता के रूप में किसे जाना जाता है?

**Megasthenes**

**A**

**मेगस्थनीज**

**Alexander Cunningham**

**B**

**अलेक्झेंडर कनिंघम**

**Jean Brunches**

**C**

**जीन ब्रंच**

**D**

**William Stubbs**

विलेयम स्टब्स

Correct Ans : **B**

Subject : **General Studies**

Q.No: 55 Which of the following is not a west flowing river?

**2407843**

निम्नलिखित में से कौन-सी पर्याप्ति की ओर बहने वाली नदी नहीं है?

**Narmada**

A

नर्मदा

**Luni**

B

लूनी

**Sabarmati**

C

सावरमती

**Son**

D

सोन

Correct Ans : **D**

Subject : **General Studies**

Q.No: 56 Which of the following soil is infertile?

**2407848**

निम्नलिखित में से कौन-सी मिट्टी अनुपजाऊ (बंजर) है?

**Peaty Soil**

A

पीटी मिट्टी

**Saline Soil**

B

नमकीन मिट्टी

**Laterite Soil**

C

लेटराइट मिट्टी

**Black Soil**

D

काली मिट्टी

Correct Ans : **B**

Subject : **General Studies**

Q.No: 57 Which of the following countries is known as the Land of Cakes?

**2407849**

निम्नलिखित में से कौन-सा देश केक की भूमि (Land of Cakes) के रूप में जाना जाता है?

**Scotland**

A

स्कॉटलैंड

**Switzerland**

B

स्विटजरलैंड

**Ireland**

C

आयरलैंड

**USA**

D

अमेरीका

Correct Ans : **A**

Subject : **General Studies**

Q.No: 58 Who calculate the GDP of India?

**2408005**

भारत की जीडीपी की गणना कौन करता है?

**Reserve Bank of India**

A

भारतीय रिजर्व बैंक

**Lok Sabha members**

B

लोकसभा सदस्य

**Central Statistics Office**

C

केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय

**Supreme Court**

D

सुप्रीम कोर्ट

Correct Ans : **C**

Subject : **General Studies**

Q.No: 59 which of the following is called Fiat money?

**2408007**

निम्नलिखित में से किसे कागजी मुद्रा कहा जाता है।

**Currency notes and coins**

A

मुद्रा नोट और सिक्के

**Demand deposits**

B

डिमांड डिपॉज़िट

**Gold coins**

C

सोने के सिक्के

**Goods and services**

D

माल और सेवाएँ

Correct Ans : **A**

Subject : **General Studies**

Q.No: 60 You must have heard of EMI being frequently used in general. What does 'E' in EMI stands for?

**2408010**

आपने अवश्य EMI का सामान्य रूप से इस्तेमाल होने के बारे में सुना होगा। EMI में 'E' का क्या अर्थ है?

**Encompassing**

A

**Encompassing**

**Elevated**

B

**Elevated**

C

**Estimated**

**Estimated**

**Equated**

**D**

**Equated**

Correct Ans : **D**

Subject : **General Studies**

Q.No: 61  
**2405828** A vehicle travels half the distance L with speed  $v_1$  and the other half with speed  $v_2$ , then its average speed is-

एक गाड़ी  $L$  की आधी दूरी  $v_1$  चाल से चलती है तथा शेष आधी दूरी  $v_2$  चाल से चलती है। उसकी औसत चाल है-

$$\frac{v_1 + v_2}{2}$$

**A**

$$\frac{v_1 + v_2}{2}$$

$$\frac{2v_1 + v_2}{v_1 + v_2}$$

**B**

$$\frac{2v_1 + v_2}{v_1 + v_2}$$

$$\frac{2v_1 v_2}{v_1 + v_2}$$

**C**

$$\frac{2v_1 v_2}{v_1 + v_2}$$

$$\frac{L(2v_1 + v_2)}{v_1 v_2}$$

**D**

$$\frac{L(2v_1 + v_2)}{v_1 v_2}$$

Correct Ans : **C**

Subject : **Physics I**

Q.No: 62 Which one is not a feature of motion under central conservative forces?  
**2405829**

कौन सी एक केंद्रीय संरक्षी बल के तहत गति की विशेषता नहीं है?

**The total kinetic energy is constant**

**A**

कुल गतिज ऊर्जा स्थिर है

**The angular momentum about the centre of force is constant both in magnitude and direction**

**B**

बल के केंद्र में कोणीय गति परिमाण और दिशा दोनों में स्थिर है

**The total potential energy is not constant**

**C**

कुल स्थितिज ऊर्जा स्थिर नहीं है

**D The particle always moves in a plane perpendicular to the direction of the angular momentum**

कण हमेशा कोणीय गति की दिशा के लंबवत समतल में गति करता है

Correct Ans : **C**

Subject : **Physics I**

Q.No: 63 The magnetic moment of a magnet of length 10 cm and pole strength 4.0 Am will be  
**2408523**

एक चुम्बक जिसकी लम्बाई 10 सेमी और ध्रुव क्षमता 4.0 Am है, का चुम्बकीय आघूर्ण होगा

$$0.4 \text{ Am}^2$$

**A**

$$0.4 \text{ Am}^2$$

$$1.6 \text{ Am}^2$$

**B**

$$1.6 \text{ Am}^2$$

$$20 \text{ Am}^2$$

**C**

$$20 \text{ Am}^2$$

$$8.0 \text{ Am}^2$$

**D**

$$8.0 \text{ Am}^2$$

Correct Ans : **A**

Subject : **Physics I**

Q.No: 64 X rays are.

**2408695**

x - किरणें हैं

**Stream of electrons**

**A**

इलेक्ट्रन की लहरें

**Stream of positively charged particles**

**B**

धनात्मक रूप से आपेशित कणों की लहरें

**Electromagnetic radiations of high frequency**

**C**

उच्च आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय विकिरण

**Stream of uncharged particles**

**D**

अनआवेशित कणों की लहरें

Correct Ans : **C**

Subject : **Physics I**

Q.No: 65 Which one of the following statement is wrong in the context of x rays generated from a x-ray tube?

**2408696**

x - किरणों की नली (x-रे ट्यूब) से x - रे जनरेट करने के लिये, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?

**Wavelength of characteristic x rays decreases when the atomic number of the target increases.**

**A**

गुणधर्म x-रे की तरंगदैर्घ्य कम होती है, जब लक्ष्य की परमाणु संख्या बढ़ती है!

**Cut-off wavelength of the continuous x rays depends on the atomic number of the target.**

**B**

कंटीन्यूअस x-रे की कट ऑफ तरंगदैर्घ्य लक्ष्य की परमाणु संख्या पर निर्भर करती है!

**C**

**Intensity of the characteristic x-rays depends on the electrical power given to the x ray tube.**

गुणधर्म x-रे की तीव्रता, x-रे ट्यूब को दी जाने वाली इलेक्ट्रिकल पावर पर निर्भर करती है!

**Cut off wavelength of the continuous x rays depends on the energy of the electrons in the x ray tube.**

D

कंटीन्यूअस x-रे की कट ऑफ तरंगदैर्घ्य, x-रे ट्यूब में उपस्थित इलेक्ट्रान की ऊर्जा पर निर्भर करता है।

Correct Ans : B

Subject : Physics I

Q.No: 66  
**2408697** The minimum wavelength of x ray emitted by x rays tube is 0.4125 Å. The accelerating voltage is:

x-रे ट्यूब से उत्सर्जित x-रे की निम्नतम तरंगदैर्घ्य 0.4125 Å है। त्वरित वोल्टेज है-

**30 kv**

A

**30 kv**

**50 kv**

B

**50 kv**

**80 kv**

C

**80 kv**

**60 kv**

D

**60 kv**

Correct Ans : A

Subject : Physics I

Q.No: 67 According to Moseley's law of x-rays the frequency (v) of a particular characteristic x-ray and the atomic number (z) of the element depend on each other as:  
**2408700**

मोसले के x-किरणों के नियमानुसार, किसी विशेष गुणधर्म x किरण की आवृत्ति और एक तत्व (एलीमेंट) की परमाणु संख्या z एक दूसरे पर इस प्रकार निर्भर करती है।

$$\sqrt{v} = kz^2$$

A

$$\sqrt{v} = kz^2$$

$$\sqrt{v} = \frac{k}{z^2}$$

B

$$\sqrt{v} = \frac{k}{z^2}$$

$$v = kz$$

C

$$v = kz$$

$$\sqrt{v} = kz$$

D

$$\sqrt{v} = kz$$

Correct Ans : D

Subject : Physics I

Q.No: 68 In x-ray experiment  $k_\alpha, k_\beta$  denotes -  
**2408701**

x - किरणों के प्रयोग में  $k_\alpha$   $k_\beta$  प्रदर्शित करते हैं-

**Characteristic**

A

गुणधर्म

**Continuous wavelength**

B

लगातार तरंगदैर्घ्य

$\alpha, \beta$  emissions respectively

C

$\alpha, \beta$  उत्सर्जन क्रमशः

$\alpha$  emission only

D

$\alpha$  उत्सर्जन केवल

Correct Ans : A

Subject : **Physics I**

Q.No: 69 In a potentiometer of one meter length, an unknown e.m.f voltage sources is balanced at 60 cm length of potentiometer wire, while a 3 volt battery is balanced at 45 cm length of the unknown voltage source is:

एक, एक मी. लम्बाई के पोटेन्शियोमीटर में एक अज्ञात विद्युत वाहक बल का वोल्टेज स्रोत, पोटेन्शियोमीटर तार के 60 सेमी लम्बाई पर संतुलित होता है, जबकि 3 वोल्ट बैटरी 45 सेमी लम्बाई पर संतुलित होती है तो अज्ञात वोल्टेज विद्युत वाहक बल है

**3v**

A

**3v**

**2.25v**

B

**2.25v**

**4v**

C

**4v**

**4.5V**

D

**4.5V**

Correct Ans : C

Subject : **Physics I**

Q.No: 70 A galvanometer connected with an unknown resistor and two identical cells in series each of emf 2v shows a current of 1A. If the cells are connected in parallel, it shows 0.8 A internal resistance of the cells is:

एक गेल्वोमीटर को अज्ञात प्रतिरोध और दो एकसमान सैल जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल 2V है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है! यह धारा 1A दिखाता है! यदि सैल को समांतर में जोड़ दिया जाये, तो धारा 0.8A दिखाता है तो रैखिक प्रतिरोध है

**1Ω**

A

**1Ω**

**0.5Ω**

B

**0.5Ω**

**0.25 Ω**

C

**0.25 Ω**

D

**0.33 Ω**

$0.33 \Omega$

Correct Ans : A

Subject : Physics I

Q.No: 71 A galvanometer can be used as a voltmeter by connecting a

**2409014**

एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर के रूप में उपयोग किया जा सकता है, उसमें जोड़ने पर

**High resistance in series.**

A

उच्च प्रतिरोध ब्रेणी में

**Low resistance in series.**

B

निम्न प्रतिरोध ब्रेणी में

**High resistance in parallel.**

C

उच्च प्रतिरोध समांतर में

**Low resistance in parallel.**

D

निम्न प्रतिरोध समानांतर में

Correct Ans : A

Subject : Physics I

Q.No: 72 In order to increase the sensitivity galvanometer

**2409016**

गैल्वेनोमीटर की संवेदनशीलता बढ़ाने के लिये

**The suspension wire should be made stiff**

A

संरेशन तार को स्टिक बनाना है

**Area of the coil should be reduced**

B

कोइल का क्षेत्रफल कम होना है

**The magnetic field should be increased**

C

चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाना है

**The number of turns in the coil should be reduced.**

D

कोइल में धुमाव की संख्या कम होना है

Correct Ans : C

Subject : Physics I

Q.No: 73

**2409849** Two sources of sound placed close to each other, are emitting progressive waves given by  $y_1 = 4\sin 600\pi t$  and  $y_2 = 5\sin 608\pi t$ . An observer located near these two sources of sound will hear-

दो ध्वनि तरंगों के स्त्रोत एक दूसरे के पास रहे हुए हैं जो प्रोग्रेसिव लहरें  $y_1 = 4\sin 600\pi t$  और  $y_2 = 5\sin 608\pi t$  उत्सर्जित कर रहे हैं। एक प्रेक्षक उन दोनों स्त्रोतों के पास स्थिति है, इन दो स्रोतों के पास स्थित एक अवलोकन सुनेगा।

4 beats per second with intensity ratio 25 : 16 between waxing and waning

A

4 बीट्स एक सेकण्ड में वैक्सिंग और वेनिंग के बीच 25 : 16 के अनुपात के साथ

B

8 beats per second with intensity ratio 25 : 16 between waxing and waning

8 बीट्स एक सेकंड में वैकिसंग और वैनिंग के बीच तीव्रता का अनुपात 25 : 16 के साथ

8 beats per second with intensity ratio 81 : 1 between waxing and waning

C

एक सेकंड में 8 बीट्स वैकिसंग वैनिंग के बीच 81 : 1 के अनुपात के साथ

4 beats per second with intensity ratio 81 : 1 between waxing and waning

D

एक सेकंड में 4 बीट्स वैकिसंग वैनिंग के बीच 81 : 1 के अनुपात के साथ

Correct Ans : D

Subject : Physics I

Q.No: 74 Beats are the result of-

**2409850**

बीट्स परिणाम हैं-

**Diffraction**

A

विवर्तन का

**Constructive interference**

B

घातक हस्तक्षेप व्यतिकरण (डेस्ट्रिफ्रेक्शन) का

**Constructive bid destructive interference**

C

निमार्णकारी व्यतिकरण और घातक व्यतिकरण का

**Superposition of two waves of nearly equal frequencies**

D

दो कमीवी समान आवृत्तियों की दो लहरों के अध्यारोपण का

Correct Ans : D

Subject : Physics I

Q.No: 75 Two source produce sound waves of nearly equal amplitudes and travelling along the same direction producing 18 beats in 3 seconds. If one source has a frequency of 341 Hz, **2409851** frequency of the other source may be-

दो स्रोत, तकरीबन समान आयामों की लहरें उत्पन्न करते हैं और एक ही दिशा में गति करते हुए 3 सेकंड में 18 बीट उत्पन्न करते हैं। यदि एक स्रोत की आवृत्ति 341 हर्टज है, तो दूसरे स्रोत की आवृत्ति हो सकती है-

**329 or 353 Hz**

A

**329 या 353 Hz**

**335 or 347 Hz**

B

**335 या 347 Hz**

**338 or 344 Hz**

C

**338 या 344 Hz**

**332 or 350 Hz**

D

**332 या 350 Hz**

Correct Ans : B

Subject : Physics I

Q.No: 76 A tuning fork of frequency 250 Hz produces a beat frequency of 10 Hz when sounded with a sonometer vibrating at its fundamental frequency. When the tuning fork is filed, the **2409855** frequency decreases. If the length of the sonometer wire is 0.5 m, the speed of the transverse wave is-

एक 250 हर्ट्ज की आवृत्ति वाला ट्यूनिंग फोर्क 10 हर्ट्ज की बीट आवृत्ति उत्पन्न करता है जब एक सोनोमीटर अपनी मूल आवृत्ति से कंपित होता है, के साथ सुना जाता है। जब ट्यूनिंग फोर्क भरा है, तो बीट आवृत्ति कम हो जाती है।

260 ms<sup>-1</sup>

A

260 मी/से.

250 ms<sup>-1</sup>

B

250 मी/से.

240 ms<sup>-1</sup>

C

240 मी/से.

500 ms<sup>-1</sup>

D

500 मी/से.

Correct Ans : A

Subject : Physics I

Q.No: 77 Two tuning forks have frequencies 450 Hz and 454 Hz respectively. On sounding these forks together, the time interval between successive maximum intensities will be-  
**2409856**

दो ट्यूनिंग फोर्क्स की आवृत्तियाँ क्रमशः 450 हर्ट्ज और 454 हर्ट्ज हैं। दोनों को एक साथ बजाने पर, उत्तरोत्तर उच्चतम तीव्रताओं के बीच का समय अंतराल होगा-

$\frac{1}{4}$  sec

A

$\frac{1}{4}$  से.

$\frac{1}{2}$  sec

B

$\frac{1}{2}$  से.

1 sec

C

1 से.

2 sec

D

2 से.

Correct Ans : A

Subject : Physics I

Q.No: 78 Two sound waves with wavelengths 5.0 m and 5.5. m respectively, each propagate in a gas with velocity 330 m/s. We expect the following number of beats per second:-  
**2409857**

दो ध्वनि तरंगे जिनकी तरंग दैर्घ्य क्रमशः 5.0 मीटर और 5.5 मीटर हैं, एक गैस में 330 मी/से. वेग से चलती हैं हम आशा करते हैं कि एक सेकण्ड में निम्नलिखित बीट की संख्या की है-

1

A

1

B

6

**6**

**12**

C

**12**

**0**

D

**0**

Correct Ans : **B**

Subject : **Physics I**

Q.No: 79 A tuning fork gives 4 beat with 50 cm length of a sonometer wire. If the length of the wire is shortened by 1 cm, the number of beat is still the same. The frequency of the forl  
**2409861**

एक ट्यूमिक फोर्क 50 सेमी लंबाई के साथ 4 बीट देता है। यदि तार की लंबाई 1 सेमी से छोटा हो जाय, और बीट की संख्या फिर भी समान हो, तो फोर्क की आवृत्ति है-

**396**

A

**396**

**400**

B

**400**

**404**

C

**404**

**384**

D

**384**

Correct Ans : **A**

Subject : **Physics I**

Q.No: 80  
**2409936** Two sirens situated one kilometer apart are producing sound of frequency 330 Hz. An observer starts moving from one siren to the other with a speed of 2 m/s. If the speed of sound be 330 m/s, what will be the beat frequency heard by the observer is?

दो भौपू एक दूसरे से एक किमी की दूरी पर 330 हर्टज की आवृत्ति वाली ध्वनि उत्पन्न करते हैं, एक प्रेक्षक, एक भौपू से दूसरे की तरफ 2 मी/से. की चाल से चलना प्रारंभ करता है। यदि ध्वनि की चाल 330 मी/से. है, तो प्रेक्षक द्वारा सुनी जाने वाली बीट आवृत्ति होगी-

**8**

A

**8**

**4**

B

**4**

**6**

C

**6**

**1**

D

**1**

Correct Ans : **B**

Subject : **Physics I**

Q.No: 81  
**2409937**

A police car horn emits a sound at a frequency 240 Hz when the car is at rest. If the speed of the sound is 330 m/s, the frequency heard by an observer who is approaching the car at a speed of 11 m/s is -

एक पुलिस कार का हॉर्न जब कार विरामावस्था में है, तो 240 हर्ट्ज की ध्वनि उत्सर्जित करती है। यदि ध्वनि की चाल 330 मी/से. है। प्रेक्षक के द्वारा सुनी जाने वाली आवृत्ति, जब प्रेक्षक कार की तरफ 11 मी./से. की चाल से चल रहा है-

**248 Hz**

**A**

**248 हर्ट्ज**

**244 Hz**

**B**

**244 हर्ट्ज**

**240 Hz**

**C**

**240 हर्ट्ज**

**230 Hz**

**D**

**230 हर्ट्ज**

Correct Ans : **A**

Subject : **Physics I**

Q.No: 82 A man pushes a wall and fails to displace it. So what work is he doing on the wall?  
**2746475**

एक आदमी एक दीवार को धक्का देता है और उसे विस्थापित करने में विफल रहता है। तो वह दीवार पर कौन-सा कार्य कर रहा है?

**Negative work**

**A**

**ऋणात्मक कार्य**

**Positive but not maximum work**

**B**

**सकरात्मक लेकिन अधिकतम नहीं**

**No work at all**

**C**

**कोई कार्य नहीं हुआ**

**Maximum work**

**D**

**अधिकतम कार्य**

Correct Ans : **C**

Subject : **Physics I**

Q.No: 83 If a lighter body (Mass  $M_1$  and velocity  $V_1$ ) and a heavier body (mass  $M_2$  and velocity  $V_2$ ) have the same kinetic energy. Which of the following relation is correct?  
**2746476**

यदि एक हल्का पिंड (द्रव्यमान  $M_1$  और वेग  $V_1$ ) और एक भारी पिंड (द्रव्यमान  $M_2$  और वेग  $V_2$ ) की गतिज ऊर्जा समान है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है?

$M_2 V_2 < M_1 V_1$

**A**

$M_2 V_2 < M_1 V_1$

$M_2 V_2 = M_1 V_1$

**B**

$M_2 V_2 = M_1 V_1$

M<sub>2</sub>V<sub>1</sub> = M<sub>1</sub>V<sub>2</sub>

C

M<sub>2</sub>V<sub>1</sub> = M<sub>1</sub>V<sub>2</sub>

M<sub>2</sub>V<sub>2</sub> > M<sub>1</sub>V<sub>1</sub>

D

M<sub>2</sub>V<sub>2</sub> > M<sub>1</sub>V<sub>1</sub>

Correct Ans : D

Subject : Physics I

Q.No: 84 Gravitational attraction between two bodies increases when the masses of the bodies:  
**2746490**

दो पिंडों के बीच गुरुत्वीय आकर्षण बढ़ जाता है, जब पिंडों का द्रव्यमान:

**Decreases and distance is also decrease**

A

घटता है और दूरी घटती है

**Increase and distance is also decreases**

B

बढ़ता है और दूरी घटती है

**Decreases and distance is also increases**

C

घटता है और दूरी बढ़ती है

**Increases and distance is also increases**

D

बढ़ता है और दूरी बढ़ती है

Correct Ans : B

Subject : Physics I

Q.No: 85 Where is the maximum value of acceleration due to gravity? (R is the radius of earth)  
**2746491**

गुरुत्वीय त्वरण का अधिकतम मान कहाँ होता है? (R पृथ्वी की त्रिज्या है)

A height  $\frac{R}{2}$  from the earth's surface

A

पृथ्वी की सतह से  $\frac{R}{2}$  ऊँचाई पर

**The centre of the earth**

B

पृथ्वी के केंद्र पर

**The surface of the earth**

C

पृथ्वी की सतह पर

A depth  $\frac{R}{2}$  from the earth's surface

D

पृथ्वी की सतह से  $\frac{R}{2}$  गहराई पर

Correct Ans : C

Subject : Physics I

Q.No: 86 When will the restoring force on a particle performing simple harmonic motion be maximum?  
**2746526**

सरल आवर्त गति करने वाले कण पर अधिकतम प्रत्यानन बल कब होगा?

A

**Maximum displacement**

अधिकतम विस्थापन पर

**Half distance of mean and maximum displacement**

B

मध्य तथा अधिकतम विस्थापन के आधी दूरी पर

**Passing through the mean position**

C

मध्य स्थिति से गुजरने पर

**In rest**

D

विराम में

Correct Ans : **A**

Subject : **Physics I**

Q.No: 87 A particle executes simple harmonic motion between  $x = -A$  and  $x = +A$ . The time taken  
**2746527** for it to go from 0 to  $\frac{A}{2}$  is  $T_1$  and to go from  $\frac{A}{2}$  to A is  $T_2$ . Which of the following relation is correct?

एक कण  $x = -A$  और  $x = +A$  के बीच सरल आवर्त गति करता है। 0 से  $\frac{A}{2}$  तक जाने में  $T_1$  समय लगता है और  $\frac{A}{2}$  से A तक जाने में  $T_2$  समय लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है?

$$T_1 < T_2$$

A

$$T_1 < T_2$$

$$T_1 > T_2$$

B

$$T_1 > T_2$$

$$T_1 = T_2$$

C

$$T_1 = T_2$$

$$T_1 = 2T_2$$

D

$$T_1 = 2T_2$$

Correct Ans : **A**

Subject : **Physics I**

Q.No: 88 A particle is performing simple harmonic motion along the x-axis with an amplitude of 4 cm and a time period of 1.2 s. What is the minimum time taken by the particle to travel from **2746528** + 2 to  $x = + 4$  cm and back?

एक कण x-अक्ष के अनुदिश 4 सेमी आयाम और 1.2 s आवर्त काल के साथ सरल आवर्त गति कर रहा है। कण द्वारा  $x = + 2$  से  $x = + 4$  सेमी और वापस जाने के लिए लिया गया न्यूनतम समय क्या होगा?

**0.4 s**

A

**0.4 सेकेंड**

**0.3 s**

B

**0.3 सेकेंड**

**0.2 s**

C

**0.2 सेकेंड**

**0.6 s**

D

**0.6 सेकेंड**

Correct Ans : **A**

Q.No: 89 If instead of monochromatic light white light is used for interference of light, what would be the change in the observation?  
**2746538**

यदि प्रकाश के व्यतिकरण के लिए एकवर्णी प्रकाश के स्थान पर श्वेत प्रकाश का प्रयोग किया जाए तो प्रैक्षण में क्या परिवर्तन होगा?

**The pattern will not be visible**

A

पैटर्न दिखाई नहीं देगा

**The shape of the pattern will change from hyperbolic to circular**

B

पैटर्न का आकार अतिपरवत्तिक से गोलाकार में बदल जाएगा

**Coloured fringes will be observed with a white bright fringe at the center**

C

दीप्त फ्रिन्जों को केंद्र में एक सफेद दीप्त फ्रिन्ज के साथ देखा जाएगा

**The bright and dark fringes will change position**

D

दीप्त और अदीप्त फ्रिजों की स्थिति बदल जाएगी

Correct Ans : **C**

Q.No: 90 What kind of sources are required for Young's Double Slit experiment?

**2746539**

यंग के द्विस्लिट प्रयोग के लिए किस प्रकार के स्रोतों की आवश्यकता होती है?

**Coherent**

A

सम्बद्ध

**Incoherent**

B

असम्बद्ध

**Intense**

C

गहन

**Bright**

D

चमकदार

Correct Ans : **A**

Q.No: 91 In Young's experiment the ratio of the widths of two slits A and B is 1:16. What is the ratio of intensity at maximum and minimum in the interference pattern?  
**2746545**

यंग प्रयोग में दो स्लिट्स A और B की चौड़ाई का अनुपात 1:16 है। व्यतिकरण पैटर्न में अधिकतम और न्यूनतम पर तीव्रता का अनुपात क्या है?

$$\frac{25}{9}$$

A

$$\frac{25}{9}$$

$$\frac{36}{9}$$

B

$$\frac{36}{9}$$

C

$$\frac{9}{4}$$

$\frac{9}{4}$

$\frac{49}{25}$

D

$\frac{49}{25}$

Correct Ans : A

Subject : Physics I

Q.No: 92 If the maximum intensity of light in Young's double slit experiment is  $I_{\max}$  then what will be the  
**2746546** intensity at path difference  $\frac{\lambda}{2}$ ?

यांग के द्विस्लिट प्रयोग में प्रकाश की अधिकतम तीव्रता  $I_{\max}$  हो तो पथांतर  $\frac{\lambda}{2}$  पर तीव्रता क्या होगी?

$\frac{I_{\max}}{2}$

A

$\frac{I_{\max}}{2}$

$\frac{I_{\max}}{4}$

B

$\frac{I_{\max}}{4}$

$I_{\max}$

C

$I_{\max}$

**Zero**

D

शून्य

Correct Ans : D

Subject : Physics I

Q.No: 93 Bismuth has a half life of 5 days. What is the time taken by  $7/8^{\text{th}}$  part of the sample to decay?  
**2746604**

बिस्मिथ का आधा जीवन 5 दिनों का होता है। नमूने के  $7/8$  वें भाग को क्षय होने में कितना समय लगता है?

**10 days**

A

**10 दिन**

**12 days**

B

**12 दिन**

**15 days**

C

**15 दिन**

**20 days**

D

**20 दिन**

Correct Ans : C

Subject : Physics I

Q.No: 94 What does the capacitance of a parallel plate capacitor depend on?  
**2746677**

समान्तर प्लेट संधारित्र की धारिता किसपर निर्भर करती है?

**the type of metal used**

A

प्रयुक्त धातु के प्रकार पर

**the thickness of plates**

B

प्लेटों की मोटाई पर

**the potential applied across the plates**

C

प्लेटों के मध्य आरोपित विभवान्तर पर

**the separation between the plates**

D

प्लेटों के मध्य की दूरी पर

Correct Ans : **D**

Subject : **Physics I**

Q.No: 95 If the current in an electric bulb is 3.2 A, what is the number of electrons flowing through it in one second?  
**2746678**

यदि एक विद्युत बल्ब में विद्युत धारा 3.2 A है, तो एक सेकंड में इसके माध्यम से प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है?

$2 \times 10^9$

A

$2 \times 10^9$

$2 \times 10^{19}$

B

$2 \times 10^{19}$

$3.2 \times 10^{19}$

C

$3.2 \times 10^{19}$

$1.6 \times 10^{18}$

D

$1.6 \times 10^{18}$

Correct Ans : **B**

Subject : **Physics I**

Q.No: 96 An electric bulb of 220 V, 100 W is connected in series with another electric bulb of 220 V, 60 W. How much power will be consumed by a 100 W bulb for voltage 220 V on this combination?  
**2746694**

220 V, 100 W के एक विद्युत बल्ब को 220 V, 60 W के एक अन्य विद्युत बल्ब के साथ श्रेणी में जोड़ा गया है। इस समूहन पर वोल्टेज 220 V के लिए 100 W बल्ब द्वारा कितनी शक्ति का व्यय होगा?

**25 W**

A

**25 W**

**14 W**

B

**14 W**

**60 W**

C

**60 W**

**100 W**

D

**100 W**

Correct Ans : **B**

Q.No: 97 In charging a battery of motor-car, the following effect of electric current is used-  
**2746695**

मोटर-कार की बैटरी को आवेशित करने में विधुत धारा का निम्न प्रभाव प्रयोग में आता है-

**Magnetic**

A

चुंबकीय

**Heating**

B

ऊष्मीय

**Chemical**

C

रासायनिक

**Induction**

D

प्रेरण

Correct Ans : **C**

Subject : **Physics I**

Q.No: 98 The resistance of a galvanometer is 50 ohms, when a current of 0.01 A flows through it, full scale deflection is obtained in the galvanometer, how much resistance shunt will be required to convert the galvanometer into an ammeter of 5 ampere range?  
**2746711**

एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध 50 ओम है, जब इसमें से 0.01 A की धारा प्रवाहित होती है, तो गैल्वेनोमीटर में पूर्ण स्केल विक्षेप प्राप्त होता है, आप गैल्वेनोमीटर को 5 एम्पीयर रेज के अमीटर में बदलने के लिए कितने प्रतिरोध का शॉट लगाना चाहिए?

0.1Ω

1Ω

B

1Ω

0.01Ω

C

0.01Ω

2Ω

D

2Ω

Correct Ans : **A**

Subject : **Physics I**

Q.No: 99 The mutual inductance of two coils placed opposite is 1.5 H. If the current in one coil increases from zero to 20 A in 0.5 seconds, then what will be the flux binding to the other?  
**2746719**

सम्मुख रखी दो कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व 1.5 H है यदि 0.5 सेकंड में एक कुंडली में धारा शुरू से 20A तक बढ़ती है तो दूसरी कुंडली से फलक्स बंधता क्या होगी?

**30 weber**

A

**30 वेबर**

**20 weber**

B

**20 वेबर**

**40 weber**

C

**40 वेबर**

D

**50 weber**

**50** वेबर

Correct Ans : **A**

Subject : **Physics I**

Q.No: 100 The self-inductance of a coil is 20 H. To generate an induced electromotive force of 100 V, what should be the value of a current of 10 A in 1 s?  
**2746720**

एक कुरुलों का स्वप्रेरकत्व 20 H है 100 V का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के लिए 1 s में 10 A की धारा का मान घटकर कितना हो जाना चाहिए?

**10 A**

A

**10** एम्पियर

**5 A**

B

**5** एम्पियर

**3 A**

C

**3** एम्पियर

**2 A**

D

**2** एम्पियर

Correct Ans : **B**

Subject : **Physics I**



**MPESB 2024**  
**Animal Husbandry and Dairy Technology Diploma Entrance  
Test (ADDET) , Pre-Veterinary Fishery Entrance Test  
(PVFT) - 2023- Reports**

View Challenged Items/  
शिकायती प्रश्न देखें      View Report      View QP      View Candidate Response      Print Objection      View Candidate Question

Moderator  
loggedin.[  
Logout ]

[Print](#)

Testdate

28 Jul 2023 ▾

TestSlot

Shift 1 ▾

**Submit**

Q.No: 1 Internal energy of the system which is containing ideal gas, depends on \_\_\_\_\_  
**2407777**

आदर्श गैस युक्त निकाय की आंतरिक ऊर्जा \_\_\_\_\_ पर निर्भर करती है

**Pressure**

A

दब

**Volume**

B

आयतन

**Temperature**

C

ताप

**Specific volume**

D

विशिष्ट आयतन

Correct Ans : C

Subject : **Chemistry**

Q.No: 2 Thermodynamics is study of 3E-  
**2407782**

ऊष्मागतिकी 3E \_\_\_\_\_ का अध्ययन है।

**Energy, Equation, entropy**

A

**Energy(ऊर्जा), Equation(समीकरण), Entropy(एन्ट्रॉपी)**

**Energy, Entropy, Equilibrium**

B

**Energy(ऊर्जा), Entropy(एन्ट्रॉपी), Equilibrium(साम्य)**

**Element, Energy, Electron**

C

**Element(तत्व), Energy(ऊर्जा), Electron(इलैक्ट्रोन)**

**Electron, Entropy, Element**

D

**Electron(इलैक्ट्रोन), Entropy(एन्ट्रॉपी), Element(तत्व)**

Correct Ans : **B**

Subject : **Chemistry**

Q.No: 3 How many number of atoms per unit cell in FCC structure?

**2407985**

FCC संरचना में प्रति इकाई कोशिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है?

**1**

A

**1**

**4**

B

**4**

**2**

C

**2**

**6**

D

**6**

Correct Ans : **B**

Subject : **Chemistry**

Q.No: 4 In diamond, the coordination number of carbon is \_\_\_\_\_.

**2407986**

डायमंड में कार्बन की समन्वय संख्या \_\_\_\_\_ होती है।

**4 and its cell has 8 carbon atom**

A

**4 और इसके सेल में 8 कार्बन परमाणु हैं**

**4 and its unit cell has 6 carbon atoms**

B

**4 और इसके सेल में 6 कार्बन परमाणु हैं**

C

**6 and its unit cell has 8 carbon atom**

**6** और इसके सेल में **8** कार्बन परमाणु हैं

**8 and its unit cell has 6 carbon atoms**

D

**8** और इसके सेल में **6** कार्बन परमाणु हैं

Correct Ans : **A**

Subject : **Chemistry**

Q.No: 5 What volume of a 3.2 N  $\text{H}_2\text{SO}_4$  solution is needed to completely neutralize 100 ml of 1.6 N NaOH solution?  
**2408125**

3.2  $\text{NH}_2\text{SO}_4$  का कितना आयतन 1.6 N NaOH घोल के 100 मिलीलीटर को पूरी तरह से निष्प्रभाव करने के लिए घोल की आवश्यकता है।

**20 ml**

A

**20 मिली**

**200 ml**

B

**200 मिली**

**2000 ml**

C

**2000 मिली**

**2 ml**

D

**2 मिली**

Correct Ans : **B**

Subject : **Chemistry**

Q.No: 6 Which law given the dissolution of a gas in a liquid?  
**2408137**

किसी द्रव में गैस का विलयन किस नियम से दिया गया है?

**Charles law**

A

**चार्ल्स का नियम**

**Boyle's law**

B

**बॉयल का नियम**

C

**Raoult's law**

राउल्ट का नियम

**Henry's law**

D

हेनरी का नियम

Correct Ans : D

Subject : **Chemistry**

Q.No: 7 In an octahedral crystal field, the  $t_{2g}$  orbitals are–  
**2408806**

एक अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में  $t_{2g}$  कक्षक की-

Raised in energy by  $0.4 \Delta_0$

A

$0.4 \Delta_0$  से ऊर्जा बढ़ती है

Lowered in energy by  $0.4 \Delta_0$

B

$0.4 \Delta_0$  से ऊर्जा कम होती है

Raised in energy by  $0.6 \Delta_0$

C

$0.6 \Delta_0$  से ऊर्जा बढ़ती है

Lowered in energy by  $0.6 \Delta_0$

D

$0.6 \Delta_0$  से ऊर्जा कम होती है

Correct Ans : B



Subject : **Chemistry**

Q.No: 8 Which isomer of  $\text{CrCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$  is dark green in colour and forms one mole of  $\text{AgCl}$  with excess of  $\text{AgNO}_3$  solution –  
**2408843**



$\text{CrCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$  का कौनसा समावयवी गहरा हरा रंग देता है और  $\text{AgCl}$  विलयन के आधिक्य के साथ अभिक्रिया कर एक मोल  $\text{AgNO}_3$  देता है -

A



$[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]\text{Cl}_3$




B



C



D




Correct Ans : C

Subject : **Chemistry**



Q.No: 9 Which of the following has an optical isomer?

**2409056**



निम्न में से किसका प्रकाशिक समावयवी है ?





A




B



C



D



Correct Ans : C

Subject : **Chemistry**

Q.No: 10 Which one of the following group is not meta directing?

**2409303**

कौनसा समूह मेटा दिष्टकारी नहीं है?

**-CHO**

A

**-CHO**

**-NO<sub>2</sub>**

B

**-NO<sub>2</sub>**

**-SO<sub>3</sub>H**

C

**-SO<sub>3</sub>H**

**-NH<sub>2</sub>**

D

**-NH<sub>2</sub>**

Correct Ans : **D**

Subject : **Chemistry**

Q.No: 11 The pair of synthetic rubber polymer is:

**2409392**

संश्लेषित रबड़ बहुलक का समुच्चय है:

**Buna-S, Gutta-percha, buna-N**

A

**ब्यूना-S गट्टा-परचाए ब्यूना-N**

**Buna-S, neoprene, bakelite**

B

**ब्यूना-S निओप्रीन बेकेलाइट**

**Neoprene, buna-S, buna-N**

C

**निओप्रीनए ब्यूना-S ब्यूना-N**

**Orlon, neoprene, gutta-percha**

D

**ऑरलॉन, नियोप्रीन, गट्टा परचार**


Correct Ans : **C**

Subject : **Chemistry**


Q.No: 12 Which of the following is not correctly matched?

**2409419**


निम्न में से कौनसा मिलान सही नहीं है?




A




B



C



D




Correct Ans : **D**

Subject : **Chemistry**

Q.No: 13 Give the IUPAC name of the following compound:

**2409422**



निम्नलिखित यौगिक का IUPAC नाम दो -



**2, 3-dimethyl cyclobuten-1**

A

**2, 3-डाइमेथिल साइक्लो ब्यूटीन-1**

**1, 2-dimethyl cyclobuten-1**

B

**1, 2-डाई मेथिल साइक्लो ब्यूटीन-1**

**1, 4-dimethyl cyclobuten-1**

C

**1, 4-डाइमेथिल साइक्लो ब्यूटीन-1**

**1, 2-dimethyl cyclobuten-2**

D

**1, 2-डाई मेथिल साइक्लो ब्यूटीन-2**

Correct Ans : A

Subject : Chemistry

Q.No: 14     The iodine atom in  $\text{ICl}_2^-$  involves -  
**2409609**

$\text{ICl}_2^-$  में आयोडीन परमाणु है -

$\text{sp}^3\text{d}$  hybridization

A

$\text{sp}^3\text{d}$  संकरित

$\text{sp}^3\text{d}^2$  hybridization

B

$\text{sp}^3\text{d}^2$  संकरित

$\text{sp}^2$  hybridization

C

$\text{sp}^2$  संकरित

$sp^3$  hybridization

D

$sp^3$  संकरित


Correct Ans : A

Subject : Chemistry



Q.No: 15 Bauxite has the formula -

**2409634**



बॉक्साइट का सूत्र है-





A




B



C



D



Correct Ans : B

Subject : Chemistry

Q.No: 16 Tin and lead can be refined by:

**2409663**

टिन और लेड को कैसे परिशोधित किया जा सकता है ?

**Distillation**

A

आसवन विधि

B

**Liquation**

द्रवीकरण विधि

**Levigation**

C

गुरूत्व पृथक्करण विधि

**Leaching**

D

विकालन विधि

Correct Ans : **B**

Subject : **Chemistry**

Q.No: 17 During electrolytic refining of a metal, concentration to electrolyte –

**2409666**

किसी धातु के विद्युत अपघटनीय शोधन के दौरान विद्युत अपघट्य की सान्द्रता-

**Remains constant**

A

स्थिर रहती है

**Goes on decreasing**

B

घट जाती है

**Goes on increasing**

C

बढ़ती है

**First increases and then decreases**

D


पहले बढ़ती है फिर घटती है


Correct Ans : **C**

Subject : **Chemistry**

Q.No: 18

**2409776** IUPAC name of the  $\text{CH}_3 - \underset{\underset{\text{O}}{\parallel}}{\text{C}} - \underset{\underset{\text{CH}_3}{|}}{\text{CH}} - \underset{\underset{\text{O}}{\parallel}}{\text{C}} - \text{OCH}_3$  is:





**Methyl-2, 2-acetyl ethanoate**

A

मेथिल-2, 2-एसिटिल एथेनोएट

**2, 2-acetyl-1-methoxy ethanone**

B

2, 2-एसिटिल-1-मेथाक्सी एथेनोन

**Methyl-2-acetyl-3-oxobutanoate**

C

मेथिल-2-एसिटिल-3-ऑक्सोब्युटेनोएट

**Methyl-1, 3-acetyl ethanoate**

D

मेथिल-1, 3-एसिटिल एथेनोएट

Correct Ans : C

Subject : **Chemistry**

Q.No: 19

**2409781**

The IUPAC name of the compound given below is



नीचे दिये गये यौगिक का IUPAC नाम है -

**Bicyclo [3.2.1] octane**

A

बाईसाइक्लो [3.2.1] ऑक्टेन

**Bicyclo [3.2.2] octane**

B

बाईसाइक्लो [3.2.2] ऑक्टेन

**Spiro [2.2] octane**

C

स्पाइरो [2.2] ऑक्टेन

**Spiro [3.2] octane**

D

स्पाइरो [3.2] ऑक्टेन

Correct Ans : A

Subject : **Chemistry**

Q.No: 20 What will be the number of electrons in sodium ion ( $\text{Na}^+$ )?  
**2746269**

सोडियम आयन ( $\text{Na}^+$ ) में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी?

**10**

A

**10**

**11**

B

**11**

**9**

C

**9**

**12**

D

**12**

Correct Ans : **A**

Subject : **Chemistry**

Q.No: 21 If the electron goes from  $n = 3$  to  $n = 2$  then what will be the energy emitted?  
**2746274**

यदि इलेक्ट्रॉन  $n = 3$  से  $n = 2$  में जाता है तब विसर्जित ऊर्जा क्या होगी?

**10.2 eV**

A

**10.2 eV**

**12.09 eV**

B

**12.09 eV**

**1.9 eV**

C

**1.9 eV**

**0.65 eV**

D

**0.65 eV**

Correct Ans : **C**

Subject : **Chemistry**

Q.No: 22 The magnitude of colligative properties in all colloidal dispersions is \_\_\_\_\_ than solution.

**2746282**

सभी कोलाइडी परिक्षेपनों में अनुसंख्यक गुणधर्मों का मान विलयन की तुलना में \_\_\_\_\_ होगा।

**Lower**

**A**

कम

**Higher**

**B**

ज्यादा

**Equal**

**C**

बराबर

**None of the given options**

**D**

दिए गए विकल्पों में से कोई भी नहीं

Correct Ans : **A**

Subject : **Chemistry**

Q.No: 23 Which one of the following is a non-ideal solution?

**2746283**

निम्न में से कौन-सा अनादर्श विलयन है?

**Benzene + toluene**

**A**

बेंजीन + टालुइन

**n-hexane + n-heptane**

**B**

**n-हैक्सेन + n-हैटेन**

**Ethyl bromide + ethyl iodide**

**C**

एथिल ब्रोमाइड + एथिल आयोडाइड

**CCl<sub>4</sub> + CHCl<sub>3</sub>**

**D**

**CCl<sub>4</sub> + CHCl<sub>3</sub>**

Correct Ans : **D**

Subject : **Chemistry**

Q.No: 24 IUPAC name of  $\text{CH}_3\text{-O-C}_2\text{H}_5$  is-  
**2746385**

$\text{CH}_3\text{-O-C}_2\text{H}_5$  का IUPAC नाम है-

**Ethoxy methane**

A

ऐथाक्सी मीथेन

**Methoxy ethane**

B

मैथॉक्सी एथेन

**Methylethyl ether**

C

मेथिलएथिल ईथर

**Ethylmethyl ether**

D

एथिलमेथिल ईथर

Correct Ans : **B**

Subject : **Chemistry**

Q.No: 25 which of the following compound is formed when ethyl bromide is heated with dry silver ?  
**2746394**

एथिल ब्रोमाइड को शुष्क सिल्वर के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है?

**Dimethyl ether**

A

डाइमेथिल ईथर

**Diethyl ether**

B

डाइ एथिल ईथर

**Methyl alcohol**

C

मेथिल एल्कोहल

**Ethyl alcohol**

D

एथिल एल्कोहल

Correct Ans : **B**

Subject : **Chemistry**

Q.No: 26 The unit for measurement of sedimentation of ribosome is -  
**2403482**

राइबोसोम की अवसादन गुणांक मापन इकाई है-

**Nano-meter (nm)**

A

नैनोमीटर (nm)

Angstrom ( $\text{\AA}$ )

B

अंगस्ट्रॉम ( $\text{\AA}$ )

Micron ( $\mu$ )

C

माइक्रान ( $\mu$ )

**Svedberg (S)**

D

स्वेडबर्ग (S)

Correct Ans : D

Subject : **Botany**

Q.No: 27 Barbara Mc Clintock discovered transposons in –  
**2403484**

बारबरा मैकिलिंटाक ने ट्रान्सपोसोन की खोज की-

**Rice**

A

चावल में

**Maize**

B

मक्के में

**Sweet pea**

C

मटर में

**Sugercane**

D

गन्ने में

Correct Ans : B

Subject : **Botany**

Q.No: 28 Antibiotics obtained from *Bacillus licheniformis* is  
**2403520**

वेसिसस लाइकेनी फार्मिस से प्राप्त एंटीबायोटिक हैं-

**Penicillin**

A

पेनिसिलिन

**Subtilin**

B

सब्टिलिन

**Bacitracin**

C

वेसिट्रासिन

**Polymyxin**

D

पॉलीमिक्सिन

Correct Ans : **C**

Subject : **Botany**

Q.No: 29 Caspary strips are found in the radial walls of –  
**2403538**

निम की रेडियल भित्ति पर कैस्पेरियन पट्टियां पायी जाती हैं-

**Epidermal cells**

A

बाह्य त्वचीय कोशिकाओं पर

**Pith cells**

B

मज्जा कोशिकाओं पर

**Hypodermal cells**

C

अधोत्वचीय कोशिकाओं पर

**Endodermal cells**

D

अंतः त्वचीय कोशिकाओं पर

Correct Ans : **D**

Subject : **Botany**

Q.No: 30 The term 'bast' has been used for-  
**2403540**

'बास्ट' शब्द का प्रयोग किया जाता है-

**Phloem**

A

पोषण के लिए

**Endodermis**

B

अन्तः त्वचा के लिए

**Xylem**

C

जाइलम के लिए

**Pericycle**

D

परिरंभ के लिए

Correct Ans : A

Subject : Botany

Q.No: 31 During the process of photosynthesis the raw material used are-

**2403553**

प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान प्रयुक्त कच्चे पदार्थ हैं-

**Mannose**

A

मैनोज

**Starch**

B

स्टार्च

**Carbondioxide and water**

C

कार्बनडाइऑक्साइट एवं जल

**Chlorophyll**

D

क्लोरोफिल

Correct Ans : C

Subject : Botany

Q.No: 32 Which of the following is substrate in photorespiration?

**2403559**

निम्न में से कौन प्रकाश श्वसन में सब्स्ट्रेट है?

**Protein**

A

प्रोटीन

**Glycolate**

B

ग्लाइकोलेट

**Glucose**

C

ग्लूकोज

**Carbon dioxide**

D

कार्बनडाईऑक्साइड

Correct Ans : **B**

Subject : **Botany**

Q.No: 33 Gibberllin was discovered in-  
**2403567**

गिबरलिन की खोज की गई-

**Bacteria**

A

जीवाणु में

**Pollen grains**

B

परागकण में

**Fungi**

C

कवक में

**Roots of plants**

D

पौधों की जड़ों में

Correct Ans : **C**

Subject : **Botany**

Q.No: 34 Which of the following checks sprouting in potato?  
**2403568**

निम्न में से आलू में अंकुरण कौन-सा पदार्थ नियंत्रित करता है?

A

**Cytokinin**

साइटोकाइनिन

**2-4-D**

B

**2-4-D**

**IAA**

C

आई. ए. ए.

**Maleic hydrazide**

D

मैलिक हाइड्राजाईट

Correct Ans : **D**

Subject : **Botany**

Q.No: 35 Factors which relate to form and behavior of the earth's surface are called-  
**2403573**

ऐसे घटक जो पृथ्वी की सतह के रूप एवं व्यवहार में संबंध दर्शाते हैं, वह कहलाते हैं-

**Topographic**

A

स्थलाकृतिक

**Edaphic**

B

मृदीय कारक

**Biotic**

C

जैविक

**Climatic**

D

जलवायवी

Correct Ans : **A**

Subject : **Botany**

Q.No: 36 Concept of ecosystem are-  
**2403575**

परिस्थितिकी के घटक हैं-

A

**Plants and animals**

पौधे एवं जन्तु

**Air and Light**

B

वायु एवं प्रकाश

**Water and soil**

C

जल एवं मृदा

**Biotic and abiotic**

D

जैविक एवं अजैविक

Correct Ans : D

Subject : **Botany**

Q.No: 37 The effects of global warming include which of the following?

**2581800**

ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों में निम्नलिखित में से क्या शामिल है?

**Deforestation**

A

वनों की कटाई

**Rise in sea level**

B

समुद्र के स्तर में वृद्धि

**Waste generation**

C

कचरा बर्बादी

**Rapid increase in population**

D

जनसंख्या में तेजी से वृद्धि

Correct Ans : B

Subject : **Botany**

Q.No: 38 Mendel conducted his research on pea plants because-

**2581811**

मेंडल ने मटर के पौधों पर अपना शोध किया क्योंकि\_\_\_\_\_

A

**They were cheap**

वे सस्ते थे

**They had contrasting characters**

B

उनके विपरीत पात्र थे (**contrasting characters**)

**They were available easily**

C

वे आसानी से उपलब्ध थे

**All of the given option**

D

दिए गए सभी विकल्प

Correct Ans : **B**

Subject : **Botany**

Q.No: 39 What kind of plant photosynthesis-related responses involve peroxisomes?

**2581827**

किस प्रकार के पादप प्रकाश-संश्लेषण से संबंधित प्रतिक्रियाओं में पेरोक्सीसोम शामिल होते हैं?

**Calvin Cycle**

A

कैल्विन साइकिल

**Glycolytic cycle**

B

ग्लाइकोलाइटिक चक्र

**Glyoxylate cycle**

C

ग्लाइऑक्साइलेट चक्र

**Bacterial photosynthesis**

D

जीवाणु प्रकाश संश्लेषण

Correct Ans : **C**

Subject : **Botany**

Q.No: 40 What Causes a Plant to Bend Toward the Light as It Grows?

**2581832**

पौधे के बढ़ने पर प्रकाश की ओर झुकने का क्या कारण है?

**Because phototrophic plants are green.**

A

क्योंकि प्रकाशपोषी पौधे हरे होते हैं।

**B Auxin accumulated on the shaded side stimulates more cell elongation.**

छायांकित पक्ष (shaded region) पर सचित ऑक्सिन (accumulated Auxin) अधिक कोशिका विस्तार को उत्तेजित (stimulates) करता है।

**Since photosynthesis requires light for plants.**

C

चूंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है।

**Light causes cells on that side to develop more quickly.**

D

प्रकाश उस तरफ की कोशिकाओं को अधिक तेजी से विकसित करने का कारण बनता है।

Correct Ans : **B**

Subject : **Botany**

Q.No: 41 What is the reason behind the increase in fluidity of the plasma membrane?

**2581836**

प्लाज्मा श्लिली की तरलता (fluidity) में वृद्धि के पीछे क्या कारण है?

**Increased unsaturated fatty acids in the membrane.**

A

श्लिली में असंतुप्त वसीय अम्लों में वृद्धि। (**Increased unsaturated fatty acids in the membrane**)

**Increase in saturated fatty acids in the membrane**

B

श्लिली में संतुप्त फैटी एसिड में वृद्धि (**Increase in saturated fatty acids in the membrane**)

**an increase in the membrane's glycolipid content**

C

श्लिली की ग्लाइकोलिपिड सामग्री (**content**) में वृद्धि

**an increase in the membrane's phospholipid content**

D

श्लिली की फॉस्फोलिपिड सामग्री में वृद्धि

Correct Ans : **A**

Subject : **Botany**

Q.No: 42 Restrictions enzymes are utilised in genetic engineering experiments for\_\_\_\_\_.

**2581842**

प्रतिबंध एंजाइमों (Restrictions enzymes) का उपयोग आनुवंशिक इंजीनियरिंग (genetic engineering) \_\_\_\_\_ प्रयोगों में किया जाता है

**Viral DNA**

A

**वायरल डीएनए (Viral DNA)**

B

**bacterial DNA**

**जीवाणु डीएनए (Bacterial DNA)**

**eukaryotic DNA**

C

**यूकेरियोटिक डीएनए (eukaryotic DNA)**

**any type of DNA.**

D

**किसी भी प्रकार का डीएनए**

Correct Ans : **B**

Subject : **Botany**

Q.No: 43 What does the "heat shock" technique mean for bacterial transformation?

**2581846**

जीवाणु परिवर्तन के लिए "हीट शॉक" तकनीक का क्या अर्थ है?

**binding of DNA to the cell wall**

A

**कोशिका भित्ति से डीएनए का बंधन (binding)**

**uptake of DNA through membrane transport proteins**

B

**झिल्ली परिवहन प्रोटीन के माध्यम से डीएनए का अवशोषण (uptake)**

**uptake of DNA through transient pores in the bacterial cell wall**

C

**जीवाणु कोशिका भित्ति में क्षणिक छिद्रों के माध्यम से डीएनए का अवशोषण**

**expression of antibiotic resistance gene**

D

**एंटीबायोटिक प्रतिरोध जीन (resistance gene) की अभिव्यक्ति**

Correct Ans : **C**

Subject : **Botany**

Q.No: 44 Restrictive endonuclease enzymes were discovered by whom?

**2581848**

प्रतिबंधात्मक एंडोन्यूक्लिज एंजाइम (Restrictive endonuclease enzymes) की खोज किसके द्वारा की गई थी?

**Smith and Nathane**

A

**स्मिथ और नाथन**

B

**Baiger**

बैगर

**Waxman**

C

वैक्समैन

**Fleming**

D

फ्लेमिंग

Correct Ans : **A**

Subject : **Botany**

Q.No: 45 A promising transgenic crop is golden rice. It will assist in growing \_\_\_\_\_ when it is cultivated?

**2581849**

एक आशाजनक ट्रांसजेनिक फसल (promising transgenic crop) सुनहरा चावल है। जब इसकी खेती की जाती है तो यह \_\_\_\_\_ को उगाने में मदद करेगा?

**High lysine content**

A

उच्च लाइसिन सामग्री

**Pest resistance**

B

कीट प्रतिरोध

**High protein content**

C

उच्च प्रोटीन सामग्री

**High vitamin A content**

D

उच्च विटामिन A सामग्री

Correct Ans : **D**

Subject : **Botany**

Q.No: 46 At the level of \_\_\_\_\_ the principal regulation of gene expression occurs.

**2581855**

\_\_\_\_\_ के स्तर पर जीन अभिव्यक्ति (gene expression) का मुख्य नियमन (principal regulation) होता है।

**Translation**

A

अनुवाद

**Replication**

B

**प्रतिकृति**

**Transcription**

**C**

प्रतिलिपि

**None of the given option**

**D**

दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं

Correct Ans : **C**

Subject : **Botany**

Q.No: 47 What isotope that isn't radioactive did Meselson and Stahl use in their experiment?

**2581856**

मेसेल्सन और स्टाल ने अपने प्रयोग में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जो रेडियोएक्टिव नहीं है?

**P32**

**A**

**P32**

**S35**

**B**

**S35**

**N15**

**C**

**N15**

**None of the given option**

**D**

दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं

Correct Ans : **C**

Subject : **Botany**

Q.No: 48 What happens during placentation in a single-ovule unilocular ovary?

**2581867**

एकल-अंडाकार एककोशिकीय अंडाशय में अपरा प्लेसेंटेशन (placentation in a single-ovule unilocular ovary) के दौरान क्या होता है?

**Axile**

**A**

**स्तम्भिय (Axile)**

**Free central**

**B**

**मुक्त स्तम्भिय (Free central)**

**C**

**Basal**

**आधारिय (Basal)**

**Marginal**

D

**सीमांत (Marginal)**

Correct Ans : **C**

Subject : **Botany**

Q.No: 49 What structure is absent in angiosperms?

**2581868**

आवृतबीजी (angiosperms) में कौन-सी संरचना अनुपस्थित होती है?

**Archegonium**

A

**आर्कगोनियम (Archegonium)**

**Carpel**

B

**कापेल (Carpel)**

**Anther**

C

**परागकोश (Anther)**

**Megagametophyte**

D

**मेगागमेटोफाइट (Megagametophyte)**

Correct Ans : **A**

Subject : **Botany**

Q.No: 50 Which of the following plants comes under the category of polycarpic plant? grows in multiple locations?

**2581869**

निम्नलिखित में से कौन सा पौधा पॉलीकार्पिक पौधे की श्रेणी में आता है तथा कई स्थानों पर उगता है?

**Sugarbeet**

A

**मीठे चुकंदर**

**Cabbage**

B

**पत्ता गोभी**

C

**Carrots**

गाजर

**Apple**

**D**

सेब

Correct Ans : **D**

Subject : **Botany**

Q.No: 51 Active reabsorption of sodium takes place in which part of Nephron  
**2403323**

सोडियम का सक्रिय पुनर्अवशोषण नेफ्रॉन के किस भाग में होता है।

**Proximal convoluted tubule**

**A**

समीपस्थ घुमावदार नलिका

**Loop of Henle**

**B**

लूप आफ हेनले

**Medullary collecting duct**

**C**

मेड्यलरी संग्रहण नलिका

**Cortical**

**D**

कॉर्टिकल

Correct Ans : **A**

Subject : **Zoology**

Q.No: 52 Which type of cells provide structural support, nourishes and protect the neuron in nervous system.  
**2403339**

तंत्रिका तंत्र का कौन सा सेल न्यूरॉन्स को संरचनात्मक समर्थन पोषण और सुरक्षा प्रदान करता है।

**Satellite cell**

**A**

उपग्रह सेल

**Glial cell**

**B**

स्लिपाल सेल

**C**

**Neuropil**

न्यूरोपिल

**Nissl bodies**

D

निस्ल निकायो

Correct Ans : **B**

Subject : **Zoology**

Q.No: 53 Due to abnormal secretion of \_\_\_\_\_ cretinism disorder occurs.

**2403596**

किस असमान्य स्ताव के कारण क्रेटीनिज्म विकार उत्पन्न होता है।

**Thyroxine**

A

थायरोकिसन

**Pectin**

B

पेक्टिन

**Oxytocin**

C

ऑक्सीटोसिन

**Calcitonin**

D

कैल्सीटोनिन

Correct Ans : **A**

Subject : **Zoology**

Q.No: 54 Amniocentesis is which kind of diagnosis.

**2403608**

एमनियोसेटेसिस किस प्रकार का परीक्षण होता है -

**Preimplantation genetic diagnosis**

A

आरोपण पूर्व आनुवंशिक परीक्षण

**Pharmacogenetics diagnosis**

B

फार्माकोजेनेटिक्स परीक्षण

**Prenatal diagnosis**

C

प्रसव पूर्व परीक्षण

D

**Biopsy**

**बायोप्सी**

Correct Ans : **C**

Subject : **Zoology**

Q.No: 55 What are the reason behind growth of population.

**2403609**

जनसंख्या वृद्धि के पीछे क्या कारण है।

**Natality and Emigration**

A

जन्मदर और उत्त्रवास

**Mortality and Emigration**

B

मृत्युदर और उत्त्रवास

**Mortality and immigration**

C

मृत्युदर और आप्रवास

**Natality and immigration**

D

जन्म और आप्रवास

Correct Ans : **D**

Subject : **Zoology**

Q.No: 56 Which endocrine disorder cause excess secretion of thyroid hormones and thyrotoxicosis ?

**2403613**

किस अन्तः स्त्रावी विकार के कारण थायराइड हॉर्मोन का अत्यधिक स्त्राव होता है और थायरोटोक्सिकोसिस के कारण बनता है।

**Addison's disease**

A

एडिसन रोग

**Exophthalmic Goiter**

B

एक्सोफ्थाल्मिक गोइटर

**Hypothyroidism**

C

हाइपोथायराडिज्म

D

**Hashimoto disease**

## हाशिमोटो रोग

Correct Ans : **B**

Subject : **Zoology**

Q.No: 57 Which cell assist in repairing damaged nervous tissue in central nervous system.

**2403616**

तंत्रिका ऊतक की क्षतिपुर्ति किस कोशिका की सहायता से की जाती है।

### **Ganglia**

A

नाभिक

### **Actin**

B

ऐक्टिन

### **Axon**

C

एक्सोन

### **Glial cell**

D

प्रिलियाल सेल

Correct Ans : **D**

Subject : **Zoology**

Q.No: 58 Animals made of foreign genes through recombinant DNA technology is called.

**2403953**

पुनर्योजी डीएनए तकनीकी द्वारा विदेशी जीन से बने जानवरों को क्या कहते हैं-

### **Transgenic animals**

A

ट्रांसजेनिक जंतु

### **Transparent animal**

B

पारदर्शी जंतु

### **Infected animals**

C

संक्रमित जंतु

D

### **Bt animals**

**बीटी जंतु**

Correct Ans : **A**

Subject : **Zoology**

Q.No: 59 Which of the following functions are not carried out by single-celled organisms?

**2581875**

निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एकल-कोशिका वाले जीवों द्वारा नहीं किया जाता है?

**Digestion**

**A**

पाचन

**Respiration**

**B**

श्वसन

**Reproduction**

**C**

प्रजनन

**Neural coordination**

**D**

तंत्रिका समन्वय (**Neural coordination**)

Correct Ans : **D**

Subject : **Zoology**

Q.No: 60 What tissue is generated from all three germinal layers?

**2581878**

तीनों जनन परतों से कौन-सा ऊतक उत्पन्न होता है?

**Connective tissue**

**A**

संयोजी ऊतक (**Connective tissue**)

**Epithelial tissue**

**B**

उपकला ऊतक (**Epithelial tissue**)

**Muscular tissue**

**C**

पेशीय ऊतक (**Muscular tissue**)

**Neural tissue**

**D**

तंत्रिका ऊतक (**Neural tissue**)

Correct Ans : **B**

Subject : **Zoology**

Q.No: 61 Before antibiotics, what was the first commercial available antibacterial product?  
**2581889**

एंटीबायोटिक दवाओं से पहले, पहला वाणिज्यिक उपलब्ध जीवाणुरोधी उत्पाद कौन सा था?

**Penicillin**

A

पेनिसिलिन

**Prontosil**

B

प्रोटोसिल

**Azithromycin**

C

एजिथ्रोमाइसिन

**None of the given option**

D

दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं

Correct Ans : **B**

Subject : **Zoology**

Q.No: 62 Which procedure is used to castrate male pigs?  
**2581899**

नर सूअरों को नपुंसक करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है?

**Burdizzo**

A

बर्डिज़ो (**Burdizzo**)

**Hot iron**

B

गर्म लोहा (**Hot iron**)

**Knife**

C

चाकू (**Knife**)

**Elastrator**

D

इलास्ट्रेटर (**Elastrator**)

Correct Ans : **C**

Subject : **Zoology**

Q.No: 63 What is the name of the fleshy, visible mass that can be seen between a cow's forelimbs?

**2581900**

गाय के अग्रपादों (forelimbs) के बीच दिखाई देने वाले मांसल, दर्शय द्रव्यमान (fleshy, visible mass) का क्या नाम है?

**Rump**

A

**टुम (Rump)**

**Flank**

B

**फ्लैंक (Flank)**

**Brisket**

C

**ब्रिस्केट (Brisket)**

**Dewlap**

D

**देवलाप (Dewlap)**

Correct Ans : **C**

Subject : **Zoology**

Q.No: 64 What benefits does the second crucial biotechnology research field offer?

**2581901**

दूसरा महत्वपूर्ण जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान क्षेत्र क्या लाभ प्रदान करता है?

**Optimum conditions for the catalyst**

A

**उत्प्रेरक के लिए इष्टतम स्थितियां (Optimum conditions for the catalyst)**

**The pure form of catalyst**

B

**उत्प्रेरक का शुद्ध रूप (The pure form of catalyst)**

**An impure form of catalyst**

C

**उत्प्रेरक का एक अशुद्ध रूप (An impure form of catalyst)**

**Purification of products**

D

**उत्पादों की शुद्धि (Purification of products)**

Correct Ans : **A**

Subject : **Zoology**

Q.No: 65 Cocaine interferes with the CNS's reuptake of the \_\_\_\_\_ at the synapses when it is taken as a stimulant.  
**2581911**

जब इसे उत्तेजक के रूप में लिया जाता है तो कोकीन सिनैप्स पर सीएनएस के \_\_\_\_\_ के पुनः ग्रहण में हस्तक्षेप करता है।

**Testosterone**

A

टेस्टोरेन

**Dopamine**

B

डोपामाइन

**Adrenaline**

C

एड्रेनालाईन

**None of the given option**

D

दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं

Correct Ans : **B**

Subject : **Zoology**

Q.No: 66 What is the substance that a virally infected cell produces to prevent other cells from becoming infected further?  
**2581921**

वह कौन सा पदार्थ है जो एक विषाणु से संक्रमित कोशिका (virally infected cell) अन्य कोशिकाओं को और अधिक संक्रमित होने से बचाने के लिए पैदा करती है?

**serotonin**

A

सेरोटोनिन

**colostrum**

B

कोलोस्ट्रम

**interferon**

C

इंटरफेरॉन

**histamine.**

D

हिस्टामाइन

Correct Ans : **C**

Subject : **Zoology**

Q.No: 67 There are a total of \_\_\_\_\_ orifices that allow urine to enter and exit the bladder.  
**2581928**

कुल \_\_\_\_\_ छिद्र होते हैं जो मूत्र को मूत्राशय में प्रवेश करने और बाहर निकलने की अनुमति देते हैं।

**2**

A

**2**

**3**

B

**3**

**4**

C

**4**

**5**

D

**5**

Correct Ans : **B**

Subject : **Zoology**

Q.No: 68 Which one of these diseases doesn't involve the thyroid glands?  
**2581933**

इनमें से किस रोग में थायरॉइड ग्रंथियां शामिल नहीं हैं?

**Cretinism**

A

**क्रेटिनिज्म**

**Myxoedema**

B

**मायक्सोएडेमा**

**Goitre**

C

**घेंघा (Goitre)**

**Acromegaly**

D

**एक्रोमेगाली**

Correct Ans : **D**

Subject : **Zoology**

Q.No: 69 Programmes for plant and animal breeding are two examples of which of the following?  
**2581934**

पौधे और पशु प्रजनन के कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके दो उदाहरण हैं?

**reverse evolution**

A

**रिवर्स इवोल्यूशन**

**artificial selection**

B

**कृत्रिम चयन (artificial selection)**

**mutation**

C

**उत्परिवर्तन (mutation)**

**natural selection.**

D

**प्राकृतिक चयन (natural selection)**

Correct Ans : **B**

Subject : **Zoology**

Q.No: 70 What does the palaeontological evidence of evolution include?

**2581935**

विकासवाद के पुरापाषाणकालीन साक्ष्य (palaeontological evidence of evolution) में क्या शामिल है?

**development of embryo**

A

**भ्रूण का विकास (development of embryo)**

**homologous organs**

B

**समरूप अंग (homologous organs)**

**fossils**

C

**जीवाश्म (fossils)**

**analogous organs.**

D

**अनुरूप अंग (analogous organs)**

Correct Ans : **C**

Subject : **Zoology**

Q.No: 71 What is the most recent method for identifying a psychological disorder?

**2581945**

मनोवैज्ञानिक विकार की पहचान के लिए नवीनतम तरीका क्या है?

**WHO**

A

**WHO**

**DSM-III R**

B

**DSM-III R**

**DSM-V**

C

**DSM-V**

**ICD-9**

D

**ICD-9**

Correct Ans : **C**

Subject : **Zoology**

Q.No: 72 When people think they have extraordinary abilities, what do they suffer from?  
**2581946**

जब लोग सोचते हैं कि उनके पास असाधारण क्षमताएं हैं, तो वे किससे पीड़ित होते हैं?

**delusion of reference**

A

**संदर्भ का भ्रम (delusion of reference)**

**delusion of grandeur**

B

**भव्यता का भ्रम (delusion of grandeur)**

**delusion of control**

C

**नियंत्रण का भ्रम (delusion of control)**

**hallucination**

D

**मतिभ्रम (hallucination)**

Correct Ans : **B**

Subject : **Zoology**

Q.No: 73 Having trouble or sense of fear in entering new situations is referred to as?  
**2581947**

नई परिस्थितियों में प्रवेश करने में परेशानी या भय की भावना को क्या कहा जाता है?

A

**panic disorder**

**आतंक विकार (panic disorder)**

**compulsive disorder**

B

**बाध्यकारी विकार (compulsive disorder)**

**conversion disorder**

C

**रूपांतरण विकार (conversion disorder)**

**agoraphobia**

D

**जनातंक (agoraphobia)**

Correct Ans : **D**

Subject : **Zoology**

Q.No: 74 How many parathyroid glands are there in a human body?

**2581950**

मानव शरीर में कितनी पैराथायराइड ग्रंथियाँ होती हैं?

**2**

A

**2**

**3**

B

**3**

**4**

C

**4**

**1**

D

**1**

Correct Ans : **C**

Subject : **Zoology**

Q.No: 75 The lower jaw, head, and tongue are drawn backward by the \_\_\_\_\_ muscle.

**2581955**

निचला जबड़ा, सिर और जीभ \_\_\_\_\_ पेशी (muscle) द्वारा पीछे की ओर खीचे जाते हैं।

A

**Maximus**

मैक्रिसमस

**Retractor**

B

प्रतिकर्षक (Retractor)

**Abductor**

C

एबडक्टअर (Abductor)

**None of the given option**

D

दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं

Correct Ans : **B**

Subject : **Zoology**

Q.No: 76  
**2403853** According to Malus law, relation between intensity of polaroid ' $I_0$ ' and angle between polarized direction and vibrational plane  $\theta$  is-

मेलस के नियम के अनुसार पोलेरॉइड ' $I_0$ ' की तीव्रता और ध्रुवण दिशा और कंपन तल के बीच के कोण के बीच संबंध है-

$$I_\theta = I_0 \cos^2 \theta$$

A

$$I_\theta = I_0 \cos^2 \theta$$

$$I_0 = I_\theta \cos^2 \theta$$

B

$$I_0 = I_\theta \cos^2 \theta$$

$$I_\theta = I_0 \sin^2 \theta$$

C

$$I_\theta = I_0 \sin^2 \theta$$

$$I_\theta = I_0 \tan^2 \theta$$

D

$$I_\theta = I_0 \tan^2 \theta$$

Correct Ans : **A**

Q.No: 77

- 2403854** Two coherent sources of light having intensity ratio is 'n' the ratio of value interference pattern find by super imposition will be-  $\frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}}$

प्रकाश के दो कला सम्बद्ध स्त्रोतों की तीव्रता अनुपात  $n$  है। इसके अध्यारोपण से प्राप्त व्यतिकरण पैटर्न में अनुपात  $\frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}}$  का मान होगा -

$$\frac{\sqrt{n}}{(n+1)^2}$$

A

$$\frac{\sqrt{n}}{(n+1)^2}$$

$$\frac{2\sqrt{n}}{(n+1)^2}$$

B

$$\frac{2\sqrt{n}}{(n+1)^2}$$

$$\frac{\sqrt{n}}{(n+1)}$$

C

$$\frac{\sqrt{n}}{(n+1)}$$

$$\frac{2\sqrt{n}}{(n+1)}$$

D

$$\frac{2\sqrt{n}}{(n+1)}$$

Correct Ans : **D**

Subject : **Physics II**

Q.No: 78

- 2403856** The dispersion of a medium for wavelength  $\lambda$  is D. Then the dispersion for the wavelength  $2\lambda$  will be:

$\lambda$  तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए माध्यम की विपेक्षण क्षमता D है तो  $2\lambda$  तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए विक्षेपण क्षमता होगी-

A  $\frac{D}{8}$

B  $\frac{D}{8}$

C  $\frac{D}{4}$

B

D  $\frac{D}{4}$

E  $\frac{D}{2}$

C

F  $\frac{D}{2}$

G

H

I

Correct Ans : A

Subject : Physics II

Q.No: 79 Which of the following has no dimensions?

**2581726**

निम्नलिखित में से किसका कोई आयाम (dimension) नहीं है?

**Planck's constant**

A

प्लैंक स्थिरांक (**Planck's constant**)

**Refractive index**

B

अपवर्तक सूचकांक (**Refractive index**)

**Gravitational constant**

C

गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक (**Gravitational constant**)

**Velocity**

D

**वेग (Velocity)**

Correct Ans : **B**

Subject : **Physics II**

Q.No: 80 Which one of the following is not a unit of time:

**2581728**

निम्नलिखित में से कौन समय की इकाई नहीं है:

**Microsecond**

A

**माइक्रोसेकंड**

**Leap year**

B

**अधिवर्ष (Leap year)**

**Parallactic second**

C

**पैरालैक्टिक सेकेंड (Parallactic second)**

**Lunar months**

D

**चंद्र मास (Lunar months)**

Correct Ans : **C**

Subject : **Physics II**

Q.No: 81 When may one declare that a body has undergone work?

**2581729**

कोई कब घोषित कर सकता है कि किसी वस्तु (body) ने काम किया है?

**When a force is applied to the body**

A

**जब शरीर पर बल लगाया जाता है**

**When energy increases as a result of mechanical influence**

B

**जब यांत्रिक प्रभाव (mechanical influence) के परिणामस्वरूप ऊर्जा बढ़ती है**

**After a specific movement of the body**

C

**शरीर की एक विशिष्ट गति (specific movement) के बाद**

**None of the given option**

D

**दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं**

Correct Ans : **B**

**Subject : Physics II**

Q.No: 82 Which category do kinetic and potential energy belong to?

**2581732**

गतिज और स्थितिज ऊर्जा (kinetic and potential energy) किस श्रेणी से संबंधित हैं?

**Mechanical energy**

**A**

**यांत्रिक ऊर्जा (Mechanical energy)**

**Electrical energy**

**B**

**विद्युतीय ऊर्जा (Electrical energy)**

**magnetic energy**

**C**

**चुंबकीय ऊर्जा (magnetic energy)**

**Usual energy**

**D**

**सामान्य ऊर्जा (Usual energy)**

Correct Ans : **A**

Subject : **Physics II**

Q.No: 83 How much more kinetic energy results from a 20% increase in momentum?

**2581733**

गति (momentum) में 20% की वृद्धि से कितनी अधिक गतिज ऊर्जा (kinetic energy) उत्पन्न होती है?

**55%**

**A**

**55%**

**44%**

**B**

**44%**

**66%**

**C**

**66%**

**40%**

**D**

**40%**

Correct Ans : **B**

Subject : **Physics II**

Q.No: 84 The highest level of accuracy is attained when an object's position is determined by a beam of light if the beam is  
**2581747** \_\_\_\_\_:

उच्चतम स्तर की सटीकता (accuracy) तब प्राप्त होती है जब किसी वस्तु की स्थिति प्रकाश की किरण द्वारा निर्धारित की जाती है यदि बीम  
\_\_\_\_\_ है:

**Polarised**

A

**धूवीकृत (Polarised)**

**of longer  $\lambda$**

B

**बड़ा  $\lambda$  (of longer  $\lambda$ )**

**of shorter  $\lambda$**

C

**छोटा  $\lambda$  (of shorter  $\lambda$ )**

**of high intensity**

D

**उच्च तीव्रता का (of high intensity)**

Correct Ans : **C**

Subject : **Physics II**

Q.No: 85 Between which two of the following regions does X-ray fall?

**2581753**

निम्नलिखित में से किन दो क्षेत्रों के बीच एक्स-रे पड़ता है?

**visible and ultraviolet regions**

A

**दृश्य और पराबैंगनी क्षेत्र (visible and ultraviolet regions)**

**gamma rays and ultraviolet region**

B

**गामा किरणे और पराबैंगनी क्षेत्र (gamma rays and ultraviolet region)**

**short radio waves and long radio waves**

C

**छोटी रेडियो तरंगें और लंबी रेडियो तरंगें (short radio waves and long radio waves)**

**short radio waves and visible region**

D

**लघु रेडियो तरंगें और दृश्य क्षेत्र (short radio waves and visible region)**

Correct Ans : **B**

Subject : **Physics II**

Q.No: 86 What is the main cause of the Sun's radiant energy?

**2581755**

सूर्य की दीप्तिमान ऊर्जा (Sun's radiant energy) का मुख्य कारण क्या है?

**nuclear fission.**

A

**परमाणु विखंडन (nuclear fission)**

**photoelectric effect.**

B

**प्रकाश विद्युत प्रभाव (photoelectric effect)**

**spontaneous radioactive decay.**

C

**स्वतःस्फूर्त रेडियोधर्मी क्षय (spontaneous radioactive decay)**

**nuclear fusion.**

D

**परमाणु संलयन (nuclear fusion)**

Correct Ans : **D**

Subject : **Physics II**

Q.No: 87 500 N is the weight of a body at the earth's surface. How much would it weigh if it were buried halfway beneath the  
**2581761** earth's surface?

500 N पृथकी की सतह पर किसी वस्तु का भार है। यदि इसे पृथकी की सतह से आधा नीचे दबा दिया जाए तो इसका वजन कितना होगा?

**500 N**

A

**500 N**

**250 N**

B

**250 N**

**125 N**

C

**125 N**

**1000 N**

D

**1000 N**

Correct Ans : **B**

**Subject : Physics II**

Q.No: 88 Two planets have their ratio of mass 1:2 and ratio of their radii 1:2. What will be the value of the ratio of acceleration due to gravity?

दो ग्रहों के द्रव्यमान का अनुपात 1:2 और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण (acceleration due to gravity) के अनुपात का मान क्या होगा?

**1 : 2**

**A**

**1 : 2**

**2 : 1**

**B**

**2 : 1**

**1 : 4**

**C**

**1 : 4**

**4 : 1**

**D**

**4 : 1**

Correct Ans : **A**

**Subject : Physics II**

Q.No: 89 The term "\_\_\_\_\_ " refers to the rate at which electric charge flows through any cross-section of a conductor.

**2581765**

शब्द "\_\_\_\_\_ " उस दर को संदर्भित करता है जिस पर विद्युत आवेश (electric charge) किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट (cross-section) से प्रवाहित होता है।

**Electric flux**

**A**

**विद्युतीय फ्लक्स (Electric flux)**

**Electric potential**

**B**

**विद्युतीय संभावता (Electric potential)**

**Electric current**

**C**

**विद्युत प्रवाह (Electric current)**

**Electric field**

**D**

**विद्युत क्षेत्र (Electric field)**

Correct Ans : **D**

Subject : **Physics II**

Q.No: 90 The siemen is an unit of:

**2581770**

सीमेन किसकी इकाई है?

**Conductance**

**A**

**प्रवाहकत्व (Conductance)**

**Resistance**

**B**

**प्रतिरोध (Resistance)**

**Specific conductance**

**C**

**विशिष्ट चालन (Specific conductance)**

**Voltage**

**D**

**वोल्टेज**

Correct Ans : **A**

Subject : **Physics II**

Q.No: 91 Which of the following energy units is the largest?

**2581776**

निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इकाई सबसे बड़ी है?

**Calorie**

**A**

**कैलोरी**

**Electron volt**

**B**

**इलेक्ट्रॉन वोल्ट**

**Joule**

**C**

**जूल**

**Erg**

**D**

**अर्फ**

Correct Ans : **A**

Subject : **Physics II**

Q.No: 92 When a particular amount of heat is removed from a heat reservoir, its temperature \_\_\_\_\_.  
**2581777**

जब किसी ऊष्मा भंडार (heat reservoir) से एक विशेष मात्रा में ऊष्मा हटा दी जाती है, तो उसका तापमान \_\_\_\_\_।

**Increases**

A

बढ़ता है

**Decreases**

B

कम हो जाता है

**becomes zero**

C

शून्य हो जाता है

**remains constant**

D

स्थिर रहता है

Correct Ans : D

Subject : Physics II

Q.No: 93 Which of the following criteria does not describe the thermodynamic state of matter?  
**2581778**

निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड (criteria) पदार्थ की थर्मोडायनामिक अवस्था का वर्णन नहीं करता है?

**Temperature**

A

तापमान

**Work**

B

काम

**Pressure**

C

दबाव

**Volume**

D

मात्रा

Correct Ans : B

Subject : Physics II

Q.No: 94 Experimental evidence for the quantization of charge was provided by  
**2581783**

आवेश के परिमाणीकरण (quantization of charge) के लिए प्रायोगिक साक्ष्य (Experimental evidence) \_\_\_\_\_ द्वारा प्रदान किया गया था

**Einstein's photoelectric effect**

A

आइंस्टीन का फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव

**Frank-Hertz experiment**

B

फ्रैंक-हर्ट्ज प्रयोग

**Millikan's oil drop experiment**

C

मिलिकन का तेल बूँद प्रयोग

**Davisson and Germer experiment**

D

डेविसन और जर्मर प्रयोग

Correct Ans : C

Subject : **Physics II**

Q.No: 95 The pendulum length that is showing SHM has increased by 21%. Calculate the pendulum's periodic time's percentage increase.  
**2581788**

SHM दर्शाने वाले लोलक की लंबाई में 21% की वृद्धि हुई है। पेंडुलम की आवधिक समय (periodic time's) की प्रतिशत वृद्धि की गणना करें।

**21%**

A

**21%**

**11%**

B

**11%**

**42%**

C

**42%**

**10%**

D

**10%**

Correct Ans : D

Subject : **Physics II**

Q.No: 96 According to Hooke's law, which of the following is true:  
**2581789**

हुक के नियम के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है:

**Modulus of elasticity**

A

लोच के मापांक (**Modulus of elasticity**)

**Stress**

B

तनाव (**Stress**)

**Strain (Strain)**

C

खिंचाव (**Strain**)

**Elastic limit**

D

इलास्टिक लिमिट

Correct Ans : **A**

Subject : **Physics II**

Q.No: 97 What happens to the modulus of elasticity as temperature rises?  
**2581790**

तापमान बढ़ने पर लोच के मापांक (modulus of elasticity) का क्या होता है?

**Increases**

A

बढ़ती है

**Decreases**

B

कम हो जाती है

**Remains constant**

C

स्थिर रहता है

**Becomes zero**

D

शून्य हो जाता है

Correct Ans : **B**

Subject : **Physics II**

Q.No: 98 Which of these substances is unaffected by an elastic force when applied?  
**2581791**

इनमें से कौन सा पदार्थ लागू होने पर लोचदार बल (elastic force) से अप्रभावित रहता है?

**Copper**

A

ताँबा

**Quartz**

B

कार्ट्टज

**Steel**

C

इस्पात

**Rubber**

D

रबड़

Correct Ans : **B**

Subject : **Physics II**

Q.No: 99 An illustration of conservation of \_\_\_\_\_ is described as the motion of planets in the solar system.

**2581794**

सौर मंडल में ग्रहों की गति के रूप में \_\_\_\_\_ के संरक्षण का एक उदाहरण (illustration of conservation) वर्णित है।

**Energy**

A

ऊर्जा (**Energy**)

**Linear momentum**

B

रेखीय संवेग (**Linear momentum**)

**Mass**

C

द्रव्यमान (**Mass**)

**Angular momentum**

D

कोणीय गति (**Angular momentum**)

Correct Ans : **D**

Subject : **Physics II**

Q.No: 100 Which direction does a magnet that is suspended freely align?

**2581795**

स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुम्बक किस दिशा में सरेखित (align) होता है?

**South-west**

A

दक्षिण पश्चिम

**East-west**

B

पूरब पश्चिम

**North-south**

C

उत्तर से दक्षिण

**North-west**

D

उत्तर पश्चिम

Correct Ans : **C**

Subject : **Physics II**



**MPESB 2024**  
**Animal Husbandry and Dairy Technology Diploma Entrance  
Test (ADDET) , Pre-Veterinary Fishery Entrance Test  
(PVFT) - 2023- Reports**

[View Challenged Items/  
शिकायती प्रश्न देखें](#)

[View Report](#)

[View QP](#)

[View Candidate Response](#)

[Print Objection](#)

[View Candidate Question](#)

Moderator  
loggedin.  
[Logout]

[Print](#)

Testdate

28 Jul 2023 ▾

TestSlot

Shift 2 ▾

**Submit**

Q.No: 1 Unit of Characteristic gas constant is  
**2407788**

सार्वत्रिक गैस नियतांक की इकाई है

**kJ / (Kg \* K)**

A

**kJ / (Kg \* K)**

**kJ / K**

B

**kJ / K**

**kJ / k-mole\*K**

C

**kJ / k-mole\*K**

**kJ / mole\*K**

D

**kJ / mole\*K**

Correct Ans : C

Subject : **Chemistry**

Q.No: 2 Which of the following is not the spontaneous process-  
**2407789**

निम्नलिखित में से कौन स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम नहीं है-

**Flow of liquid higher to lower level**

A

उच्च से निम्न स्तर तक तरल का प्रवाह

**gas expansion in vacuum**

B

निर्वात में गैस का प्रसरण

**diffusion of gases from a higher concentration to lower concentration**

C

उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में गैसों का विसरण

**transfer of heat from low temperature at two atmosphere by an external energy.**

D

एक बाह्य ऊर्जा द्वारा दो वातावरण में कम तापमान से उष्ण का स्थानांतरण।

Correct Ans : D

Subject : **Chemistry**

Q.No: 3 What is the radius of the atom of body-centered cubic structure (BCC) as the atoms touch each other along the  
**2407988** cross diagonal of the cube?

बॉडी-केंद्रित घन संरचना (बीसीसी) के परमाणु की त्रिज्या क्या है क्योंकि परमाणु घन के क्रॉस विकर्ण के साथ एक दूसरे को छूते हैं?

$$r = a/2$$

A

$$r = a/2$$

$$r = a/2\sqrt{2}$$

B

$$r = a/2\sqrt{2}$$

$$r = \sqrt{3} a/4$$

C

$$r = \sqrt{3} a/4$$

$$r = a$$

D

$$r = a$$

Correct Ans : C

Subject : **Chemistry**

Q.No: 4 What is the coordinate number of calcium ions in fluorite structure?

**2407995**

फ्लोराइट संरचना में कैल्शियम आयनों की निर्देशांक संख्या क्या है?

**4**

A

**4**

**8**

**B**

**8**

**6**

**C**

**6**

**12**

**D**

**12**

Correct Ans : **B**

Subject : **Chemistry**

Q.No: 5 Which of the following was the first fertilizer company in India that was granted the permission to produce and **2408423** market the Neem Coated Urea?

निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली उर्वरक कंपनी थी जिसे नीम लेपित यूरिया के उत्पादन और विपणन की अनुमति दी गई थी?

**The Fertilizer Corporation of India Limited**

**A**

द फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

**National Fertilizers Limited**

**B**

नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

**The Fertilizers and Chemicals Travancore Limited**

**C**

द फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड

**Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited**

**D**

राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

Correct Ans : **B**

Subject : **Chemistry**

Q.No: 6 The value AH of the reaction.

**2408430**  $\text{CH}_2\text{Cl}_2(\text{g}) \rightarrow \text{C(g)} + 2\text{H(g)} + 2\text{Cl(g)}$

The average bond energies of C – H and C – Cl bonds are 416 and 328 kJ mol respectively.

अभिक्रिया का मान AH

$\text{CH}_2\text{Cl}_2(\text{g}) \rightarrow \text{C(g)} + 2\text{H(g)} + 2\text{Cl(g)}$

C-H और C-Cl बॉन्ड की औसत बॉन्ड एनर्जी क्रमशः 416 और 328 किलोजूल मोल है

2188 kJ

A

2188 किलोजूल

4968 kJ

B

4968 किलोजूल

1488 kJ

C

1488 किलोजूल

1890 kJ

D

1890 किलोजूल

Correct Ans : C

Subject : Chemistry

Q.No: 7     The fraction of chlorine precipitated by  $\text{AgNO}_3$  solution from  $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}]\text{Cl}_2$  is -  
**2408847**

$[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}]\text{Cl}_2$  से  $\text{AgNO}_3$  के विलयन द्वारा क्लोरीन का कितना भाग अवक्षेपित होता है -

1/2

A

1/2

2/3

B

2/3

1/3

C

1/3

1/4

D


1/4

Correct Ans : B



Subject : Chemistry

Q.No: 8 Which of the following is most likely formula of platinum complex, if  $\frac{1}{4}$  of total chlorine of the compound is precipitated by adding  $\text{AgNO}_3$  to its aqueous solution –



निम्नलिखित में से प्लेटिनम यौगिक का सूत्रा क्या होगा यदि उस यौगिक में उपस्थित कुल क्लोरीन का  $\frac{1}{4}$  भाग, उसके जलीय विलयन में  $\text{AgNO}_3$  मिलाने पर अवक्षेपित होता है -





A




B



C



D



Correct Ans : D

Subject : Chemistry

Q.No: 9 Nitration of acetanilide followed by hydrolysis gives :

2409305

एसिटानिलाइड के नाइट्रेशन के बाद हाइड्रोलिसिस देता है:

**o-Nitroaniline**

A

**o-नाइट्रो ऐनिलीन**

**p-Nitroaniline**

B

**p-नाइट्रो ऐनिलीन**

**o & p-Nitroaniline**

C

**o व p-नाइट्रो ऐनिलीन**

D

**o-Nitroanilinium ion**



**o-नाइट्रो एनिलीनियम आयन**

Correct Ans : **C**



Subject : **Chemistry**

Q.No: 10 Benzoylation of hydroxy and amino compounds as:

**2409310**



हाइड्रॉक्सी और अमीनो यौगिक का बैंज़ोयलेशन दिखाता है:



**Schmidt reaction**

A

श्मिट अभिक्रिया

**Schotten-:Baumann reaction**

B

शॉट्टन-बोमान अभिक्रिया

**Claisen reaction**

C

क्लैजन अभिक्रिया

**Ledere – Manasse Reaction**

D

लेडर-मानसे अभिक्रिया

Correct Ans : **B**

Subject : **Chemistry**

Q.No: 11 Which of the following is called the power house of the living cell?

**2409312**

निप्पलिखित में किसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं?

**Golgi bodies**

A

गॉल्जीकाय

B

**Nucleus**

केन्द्रक

**Mitochondria**

C

माइटोकॉन्ड्रिया

**Lysosome**

D

लाइसोसोम

Correct Ans : C

Subject : **Chemistry**

Q.No: 12 In fact orlon is:

**2409393**

ऑरलॉन वस्तुतः होता है:

**Nylon-66**

A

नाइलॉन-66

**Terylene**

B

टेरिलीन

**Poly (ethyl acrylate)**

C

पॉली (एथिल एक्रिलेट)

**Polyacrylonitrile**

D

पॉली एक्रिलोनाइट्रोइल

Correct Ans : D

Subject : **Chemistry**

Q.No: 13 The structure of spiro [3.3] heptane is


**2409425**

स्पाइरो [3.3] हेप्टेन की संरचना है -




A







B



C



D



Correct Ans : **B**

Subject : **Chemistry**

Q.No: 14    **2409428**    The molecular formula of a saturated compound is  $C_2H_4Cl_2$ . The formula permits the existence of two -

संतृप्त यौगिक का अणुसूत्र  $C_2H_4Cl_2$  है तो इस अणुसूत्र से बनेगे दो -

**Functional isomers**

A

क्रियात्मक समावयवी

**Position isomers**

B

स्थिति समावयवी

**Optical isomers**

C

प्रकाशिक समावयवी

**Cis-trans isomers**

D

समपक्ष-विपक्ष समावयवी

Correct Ans : **B**

Subject : **Chemistry**

Q.No: 15 **2409613** Which of the following statements is not correct when a mixture of NaCl and K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> is gently warmed with conc. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> -

निम्नलिखित में से कौनसा कथन सही नहीं है जब NaCl और K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> के मिश्रण को धीरे-धीरे सान्द्र H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> के साथ गर्म किया जाता है -

**A deep red vapour is evolved**

A

गहरे लाल रंग की वाष्प निकलती है।

The vapour when passed into NaOH solution gives a yellow solution of Na<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub>

B

वाष्प को NaOH में प्रवाहित करने पर, Na<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> का पीला विलयन देती है

**Chlorine gas is evolved**

C

क्लोरीन गैस निकलती है

**Chromyl chloride is formed**

D

क्रोमिल क्लोराइड बनता है

Correct Ans : **C**

Subject : **Chemistry**

Q.No: 16 The most common ore of copper is-

**2409635**

कॉपर का सर्वाधिक सामान्य अयस्क है -

$\text{Cu}_2\text{S}$

A

$\text{Cu}_2\text{S}$

$\text{CuFeS}_2$

B

$\text{CuFeS}_2$

C

$\text{CuCO}_3 \cdot \text{Cu}(\text{OH})_2$

$\text{CuCO}_3 \cdot \text{Cu(OH)}_2$

$\text{Cu}_5\text{FeS}_4$

D

$\text{Cu}_5\text{FeS}_4$

Correct Ans : **B**

Subject : **Chemistry**

Q.No: 17  
**2409643** An ore of tin containing  $\text{FeCrO}_4$  is concentrated by –

$\text{FeCrO}_4$  युक्त टिन का अयस्क किसके द्वारा सांद्रित किया जाता है-

**Magnetic separation**

A

चुम्बकीय पृथकरण

**Froth flotation**

B

झाग प्लवन

**Electrostatic**

C

स्थिर वैद्युतिकी

**Gravity separation**

D

गुरुत्वीय पृथकरण

Correct Ans : **A**

Subject : **Chemistry**

Q.No: 18 Purification of silicon element used in semi-conductors is done by –  
**2409668**

अर्द्धचालकों में प्रयुक्त सिलिकॉन का शोधन निम्न के द्वारा किया जाता है -

**Zone refining**

A

क्षेत्र परिष्करण

**Heating**

B

**गर्म करना**

**Froth floatation**

C

**झाग प्लवन**

**Heating in vacuum**

D

**निर्वात में गर्म करना**

Correct Ans : **A**

Subject : **Chemistry**

Q.No: 19 In the Hooke's process for refining of aluminium, the fused materials form three different layers and they remain **2409670** separated during electrolysis also. This is because –

एल्युमिनियम के शोधन के लिए हूप के प्रक्रम में, संगलित पदार्थ तीन विभिन्न परतें बनाता है तथा ये विद्युत अपघटन के दौरान भी पृथक रहती हैं। यह है क्योंकि -

**The upper layer is attracted by the cathode, and the lower layer is attracted by the anode**

A

ऊपरी परत के थोड़ द्वारा आकर्षित रहती है तथा निचली परत एनोड द्वारा आकर्षित रहती है

**There is special arrangement in the cell to keep the layers separate**

B

सेल में परतों को अलग रखने के लिए विशेष व्यवस्था होती है

**The 3 layers have different densities**

C

तीनों परतों का घनत्व भिन्न-भिन्न होता है

**The 3 layers are maintained at different temperatures**

D

तीनों परतें भिन्न-भिन्न ताप पर रहती है

Correct Ans : **C**

Subject : **Chemistry**

Q.No: 20 What is the number of unpaired electrons in an inert gas?

**2746270**

अक्रिय गैस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है?

**0**

A

**0**

B      **4**

**4**

**8**

C

**8**

**18**

D

**18**

Correct Ans : **A**

Subject : **Chemistry**

Q.No: 21 According to Bohr's theory, what is the angular momentum of the electron in the 5th energy level?

**2746275**

बोर सिद्धांत के अनुसार 5<sup>th</sup> ऊर्जा स्तर के इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या है-

$25h/\pi$

A

$25h/\pi$

$1.0h/\pi$

B

$1.0h/\pi$

$10h/\pi$

C

$10h/\pi$

$2.5h/\pi$

D

$2.5h/\pi$

Correct Ans : **D**

Subject : **Chemistry**

Q.No: 22 Which of the following substances does not show a sharp melting point?

**2746284**

निम्न पदार्थों में किसका स्पष्ट गलनांक नहीं है?

**KCl**

A

पोटेशियम क्लोराइड (**KCl**)

B

**Glass**

**काँच (glass)**

**Ice**

C

**बर्फ (ice)**

**Diamond**

D

**हीरा (डायमंड)**

Correct Ans : **B**

Subject : **Chemistry**

Q.No: 23 How many molecules are there in the unit cell of sodium chloride?

**2746285**

सोडियम क्लोराइड के इकाई सेल में कितने अणु होते हैं?

**2**

A

**2**

**4**

B

**4**

**6**

C

**6**

**8**

D

**8**

Correct Ans : **B**

Subject : **Chemistry**

Q.No: 24 IUPAC name of  $(\text{CH}_3)_2\text{N}-\text{C}_2\text{H}_5$  is-

**2746386**

$(\text{CH}_3)_2\text{N}-\text{C}_2\text{H}_5$  यौगिक का IUPAC नाम है

**Dimethyl ethyl amine**

A

डाईमेथिल एथिल एमीन

B

**Dimethylamino methane**

डाईमेथिल एमीनो मेथेन

**Dimethylamino ethane**

C

डाईमेथिल एमीनो ऐथेन

**N, N- Dimethylamino ethane**

D

**N, N- डाईमेथिल एमीनो ऐथेन**

Correct Ans : D

Subject : **Chemistry**

Q.No: 25 Isopropyl alcohol on oxidation forms-

**2746395**

आइसोप्रोपिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा बनेगा-

**Acetone**

A

एसीटोन

**Ether**

B

ईथर

**Ethylene**

C

एथिलीन

**Acetaldehyde**

D

एसीटेलडिहाइड

Correct Ans : A

Subject : **Chemistry**

Q.No: 26 Which of the following is not a critical element?

**2403546**

निम्न में से कौन सा क्रांतिक तत्व नहीं है?

**Nitrogen**

A

नाइट्रोजन

B

**Phosphorus**

**फास्फोरस**

**Chlorine**

**C**

क्लोरीन

**Potassium**

**D**

पोटेशियम

Correct Ans : **C**

Subject : **Botany**

Q.No: 27 Crassulacean Acid metabolism (CAM) is found in-

**2403561**

क्रसुलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म (CAM) पाया जाता है-

**C<sub>3</sub> plants**

**A**

**C<sub>3</sub> पौधों में**

**C<sub>4</sub> plants**

**B**

**C<sub>4</sub> पौधों में**

**Hydrophytes**

**C**

जलीय पौधों में

**Succulent plants**

**D**

रसदार (मॉसल) पौधों में

Correct Ans : **D**

Subject : **Botany**

Q.No: 28 Minamata disease is caused by pollution of –

**2403581**

निम्न में से किसके प्रदूषण से मिनामाता रोग होता है?

**Lead**

**A**

सीसा

**B**

**Mercury**

**पारा**

**HNO<sub>3</sub>**

**C**

**HNO<sub>3</sub>**

**DDT**

**D**

**डी.डी.टी**

Correct Ans : **B**

Subject : **Botany**

Q.No: 29 Cotton Fibres are chiefly made up of-  
**2403582**

कपास के रेशे मुख्यतः बने होते हैं-

**Protein**

**A**

**प्रोटीनों के**

**Lipids**

**B**

**लिपिड के**

**Cellulose**

**C**

**सेल्यूलोज के**

**Wax**

**D**

**मोम के**

Correct Ans : **C**

Subject : **Botany**

Q.No: 30 Plants having similar genotypes produced by plant breeding are called -  
**2403585**

पादप प्रजनन से उत्पादित ऐसे पौधे जिनका जीन प्ररूप एक समान होता है, कहलाते हैं-

**Genome**

**A**

**जीनोम**

**B**

**Clone**

**क्लोन**

**Haploid**

C

अगुणित

**Autopolyploid**

D

स्वबहुगुणित

Correct Ans : **B**

Subject : **Botany**

Q.No: 31 Photomorphogenetic pigment in plants is-

**2403586**

पौधे में प्रकाश अकारिकी वर्णक हैं-

**Carotene**

A

कैराटिन

**Chlorophyll**

B

क्लोरोफिल

**Phytochrome**

C

फाइटोक्रोम

**Vernalin**

D

वर्नेलिन

Correct Ans : **C**

Subject : **Botany**

Q.No: 32 Which of the following atmospheric layers contains the ozone shield?

**2581801**

निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय परत में ओजोन ढाल होती है?

**Troposphere**

A

क्षोभ मंडल

B

**Exosphere**

**बहिर्मंडल**

**Stratosphere**

**C**

समताप मंडल

**Mesosphere**

**D**

मध्य मंडल

Correct Ans : **C**

Subject : **Botany**

Q.No: 33 How many industrial subcategories have the CPCB found to be significantly polluting?

**2581803**

सीपीसीबी (CPCB) ने कितने औद्योगिक उपश्रेणियों को महत्वपूर्ण रूप से प्रदूषणकारी पाया है?

**17**

**A**

**17**

**25**

**B**

**25**

**27**

**C**

**27**

**31**

**D**

**31**

Correct Ans : **A**

Subject : **Botany**

Q.No: 34 Which of the following energy sources is conventional?

**2581804**

निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत पारंपरिक (conventional) है?

**Sun**

**A**

**सूरज**

**Wind**

**B**

**हवा**

**C**

**Dried dung**

सूखा गोबर

**Tides**

D

ज्वार

Correct Ans : C

Subject : Botany

Q.No: 35 What are the sources of the chemicals containing chlorine and bromine in the stratosphere?  
**2581805**

समताप मंडल में क्लोरीन और ब्रोमीन युक्त रसायनों के स्रोत क्या हैं?

**Sulphur dioxide**

A

सल्फर डाइऑक्साइड

**Nitrogen dioxide**

B

नाइट्रोजन डाइऑक्साइड

**Chlorofluorocarbons**

C

क्लोरोफ्लोरोकार्बन

**Carbon monoxide**

D

कार्बन मोनोआक्साइड

Correct Ans : C

Subject : Botany

Q.No: 36 Which of the subsequent claims is true?  
**2581806**

निम्नलिखित में से कौन सा दावा सत्य है?

**Tides are a conventional source of energy**

A

ज्वार (**Tides**) ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है

**Sun is a conventional source of energy**

B

सूर्य ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है

C      **Wind is a conventional source of energy**

पवन ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है

**Dried dung is a conventional source of energy**

**D**

सूखा गोबर ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है

Correct Ans : **D**

Subject : **Botany**

Q.No: 37 The importance of day length in plants was initially demonstrated in:

**2581818**

पौधों में दिन की लंबाई के महत्व को शुरू में \_\_\_\_\_ में प्रदर्शित किया गया था।

**Barley**

**A**

जौ

**Lettuce**

**B**

सलाद पत्ता (**Lettuce**)

**Tobacco**

**C**

तंबाकू

**Tomato**

**D**

टमाटर

Correct Ans : **C**

Subject : **Botany**

Q.No: 38 When garden pea tendrils coil around a support, it means:

**2581819**

जब मटर के दाने किसी सहरे के चारों ओर कुँडलित (tendrils coil) हो जाते हैं, तो इसका अर्थ है:

**Seismonasty**

**A**

सिस्मोनेस्टी (**Seismonasty**)

**Thigmotaxis**

**B**

थिग्मोटैक्सिस (**Thigmotaxis**)

**C**

**Gravitropism**

**गुरुत्वाकर्षण (Gravitropism)**

**Thigmotropism**

**D**

**थिग्मोट्रोफिज्म (Thigmotrophism)**

Correct Ans : **D**

Subject : **Botany**

Q.No: 39 Which of the following ways do plant hormones and enzymes differ from one another?

**2581822**

निम्नलिखित में से कौन से तरीके से पादप हार्मोन और एंजाइम एक दूसरे से भिन्न होते हैं?

**Required in less quantity**

**A**

कम मात्रा में आवश्यक होते हैं।

**They are expanded in the process**

**B**

वे इस प्रक्रिया में विस्तारित होते हैं।

**They release some energy**

**C**

वे कुछ ऊर्जा छोड़ते हैं।

**None of the given option**

**D**

दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं।

Correct Ans : **B**

Subject : **Botany**

Q.No: 40 The fusion of the male and female reproductive nuclei is referred to as

**2581823**

नर और मादा जनन केन्द्रक का संलयन (fusion) कहलाता है-

**Adoption**

**A**

**दत्तक ग्रहण (Adoption)**

**Excretion**

**B**

**मलत्याग (Excretion)**

**Fertilization**

**C**

**निषेचन (Fertilization)**

**D** **Regeneration**

## पुनर्जनन (Regeneration)

Correct Ans : **C**

Subject : **Botany**

Q.No: 41 The animal kingdom's most common protein is \_\_\_\_\_

**2581828**

जानवरों के साम्राज्य का सबसे आम प्रोटीन \_\_\_\_\_ है

**Trypsin**

A

ट्रिप्सिन

**Collagen**

B

कोलेजन

**Haemoglobin**

C

हीमोग्लोबिन

**Insulin**

D

इंसुलिन

Correct Ans : **B**

Subject : **Botany**

Q.No: 42 Which Of the following, which best describes GPI-anchored proteins?

**2581837**

निम्नलिखित में से कौन जीपीआई-एंकरयुक्त प्रोटीन (GPI-anchored proteins) का सबसे अच्छा वर्णन करता है?

**Integral plasma membrane proteins**

A

इंटीग्रल प्लाज्मा ड्झिल्ली प्रोटीन

**peripheral plasma membrane proteins**

B

परिधीय (**peripheral**) प्लाज्मा ड्झिल्ली प्रोटीन

**Ion-gated channels in the plasma membrane are occupied by proteins.**

C

प्लाज्मा ड्झिल्ली में आयन-गेटेड चैनल प्रोटीन द्वारा कब्जा कर लिया जाता है।

D

**proteins that randomly bind to the plasma membrane's lipids**

प्रोटीन जो बेतरतीब ढंग (**randomly**) से प्लाज्मा फ़िल्मी के लिपिड से बंधते हैं

Correct Ans : **B**

Subject : **Botany**

Q.No: 43 The method through which oxygen and carbon dioxide pass through the plasma membrane is  
**2581838**

जिस विधि से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा फ़िल्मी से होकर गुजरती है वह \_\_\_\_\_ है।

**Active diffusion**

A

**सक्रिय प्रसार (Active diffusion)**

**Facilitated diffusion**

B

**सुविधा प्रसार (Facilitated diffusion)**

**Passive diffusion**

C

**निष्क्रिय प्रसार (Passive diffusion)**

**Random diffusion**

D

**यादच्छिक प्रसार (Random diffusion)**

Correct Ans : **C**

Subject : **Botany**

Q.No: 44 By using different restriction endonucleases, the DNA fragments created can be separated by:  
**2581843**

विभिन्न प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिअस (restriction endonucleases) का उपयोग करके, बनाए गए डीएनए टुकड़े को अलग कैसे किया जा सकता है?

**gel electrophoresis**

A

**जेल वैद्युतकणसंचलन (gel electrophoresis)**

**polymerase chain reaction**

B

**पोलीमरेज चेन रिएक्शन (polymerase chain reaction)**

**density gradient centrifugation**

C

**घनत्व ढाल सेंट्रीफ्यूजेशन (density gradient centrifugation)**

D **All of the given option**

दिए गए सभी विकल्प

Correct Ans : A

Subject : Botany

Q.No: 45 In a PCR reaction, which of the following steps is catalysed by Taq polymerase?

**2581847**

एक पीसीआर प्रतिक्रिया में, निम्नलिखित में से कौन सा कदम टैक पोलीमरेज़ द्वारा उत्प्रेरित होता है?

**Denaturation of template DNA**

A

टेम्प्लेट डीएनए का विकृतीकरण (**Denaturation of template DNA**)

**Annealing of primers to template DNA**

B

डीएनए को टेम्प्लेट करने के लिए प्राइमरों की एनीलिंग (**Annealing of primers to template DNA**)

**Extension of primer end on the template DNA**

C

टेम्प्लेट डीएनए पर प्राइमर अंत का विस्तार (**Extension of primer end on the template DNA**)

**All of the given option**

D

दिए गए सभी विकल्प

Correct Ans : C

Subject : Botany

Q.No: 46 From the nucleus to the cytoplasm, genetic information is transmitted through\_\_\_\_\_.

**2581850**

केन्द्रक (nucleus) से कोशिका द्रव्य (cytoplasm) में आनुवंशिक सूचना \_\_\_\_\_ के माध्यम से प्रेषित (transmitted) होती है।

**RNA**

A

आरएनए

**Anticodon**

B

एंटीकोडन

**DNA**

C

डीएनए

**Lysosomes**

D

लाइसोसोम

Correct Ans : A

Subject : **Botany**

Q.No: 47 In DNA replication, the proofreading enzyme is called\_\_\_\_\_.

**2581851**

डीएनए प्रतिकृति में, प्रूफरीडिंग एंजाइम को \_\_\_\_\_ कहा जाता है।

**Primase**

A

प्राइमेज

**DNA Polymerase I**

B

डीएनए पोलीमरेज I

**Ligase**

C

लिगेज

**DNA Polymerase II**

D

डीएनए पोलीमरेज II

Correct Ans : **B**

Subject : **Botany**

Q.No: 48 Which classification system was developed by Bentham and Hooker?

**2581860**

बेंथम और हुकर द्वारा किस वर्गीकरण प्रणाली का विकास किया गया था?

**Numerical**

A

न्यूमेरिकल

**Phylogenetic**

B

वंशावली (**Phylogenetic**)

**Artificial**

C

कृत्रिम

**Natural**

D

प्राकृतिक

Correct Ans : **D**

Subject : **Botany**

Q.No: 49 Which location is used to perceive duration of light or dark?

**2581870**

प्रकाश या अंधेरे की अवधि को देखने के लिए किस स्थान का उपयोग किया जाता है?

**Leaves**

**A**

पत्तियाँ

**Stem**

**B**

तना

**Roots**

**C**

जड़ों

**Apical bud**

**D**

**शिखर कली (Apical bud)**

Correct Ans : **A**

Subject : **Botany**

Q.No: 50 Which of the following is a live species that contains phytochrome, a blue-green pigment?

**2581871**

निम्नलिखित में से कौन सी एक जीवित प्रजाति (live species) है जिसमें फाइटोक्रोम, एक नीला-हरा रंगद्रव्य होता है?

**Algae**

**A**

**शैवाल (Algae)**

**Fungi**

**B**

**कवक (Fungi)**

**Flowering plants**

**C**

फूलों वाले पौधे

**Vascular cryptograms**

**D**

**संवहनी क्रिप्टोग्राम (Vascular cryptograms)**

Correct Ans : **C**

Subject : **Botany**

Q.No: 51 Which set of ions are necessary for nerve impulse induction  
**2403587**

तंत्रिका आवेग चालन के लिए आयनों के किस सेट की आवश्यकता होती है।

**Sodium and calcium ions**

A

सोडियम एवं कैल्शियम आयन

**Magnesium and potassium ions**

B

मैग्नीशियम एवं पोटेशियम आयन

**Sodium and potassium ions**

C

सोडियम एवं पोटेशियम आयन

**Calcium and potassium ions**

D

कैल्शियम एवं पोटेशियम आयन

Correct Ans : **C**

Subject : **Zoology**

Q.No: 52 Hormone released by hypothalamus is called.  
**2403590**

हाइपोथैलेमस द्वारा कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है।

**Vasopressin**

A

वासोप्रेसिन

**Melatonin**

B

मेलाटोनिन

**Somatostatin**

C

सोमेटोस्टेटीन

**Aldosterone**

D

एल्डोस्ट्रीशेन

Correct Ans : **C**

Subject : **Zoology**

Q.No: 53 Which of the following factors affects the structure of the cell?  
**2581876**

निम्नलिखित में से कौन सा कारक कोशिका की संरचना को प्रभावित करता है?

**Length**

A

लंबाई

**Size**

B

आकार

**Life**

C

जीवन

**Function**

D

**कार्य (Function)**

Correct Ans : D

Subject : Zoology

Q.No: 54 Which of the following tissues has the greatest capacity for regeneration?

**2581877**

निम्नलिखित में से किस ऊतक (tissues) में पुनर्जनन (regeneration) की सर्वाधिक क्षमता होती है?

**Epithelial tissue**

A

उपकला ऊतक (**Epithelial tissue**)

**Nervous tissue**

B

संयोजी ऊतक (**Connective tissue**)

**Muscular tissue**

C

पेशीय ऊतक (**Muscular tissue**)

**Neural tissue**

D

तंत्रिका ऊतक (**Neural tissue**)

Correct Ans : A

Subject : Zoology

Q.No: 55 Which of the following earthworm species is not an epidemic species?

**2581879**

निम्नलिखित में से कौन-सी केंचुआ प्रजाति महामारी (epidemic) की प्रजाति नहीं है?

**Eudrilus**

A

**यूड्रिलस (Eudrilus)**

**Lampito**

B

**लैम्पिटो (Lampito)**

**Octochaetona**

C

**ऑक्टोचैटोन (Octochaetona)**

**Peronyx**

D

**पेरीओनीक्स (Peronyx)**

Correct Ans : A

Subject : Zoology

Q.No: 56 Which of the following species of caterpillar harms coconuts?

**2581880**

निम्नलिखित में से कौन सी कैटरपिलर प्रजाति नारियल को नुकसान पहुँचाती है?

**Prodenia litura**

A

**प्रोडेनिया लिटुरा (Prodenia litura)**

**Calandra oryza**

B

**कैलेंड्रा ओरीज़ा (Calandra oryza)**

**Pectinophora gossypiella**

C

**पेक्टिनोफोरा गॉसिपिएला (Pectinophora gossypiella)**

**Nephantis serenopa**

D

**नेफैटिस सेरेनोपा (Nephantis serenopa)**

Correct Ans : D

Subject : Zoology

Q.No: 57 Beekeeping as a business and scientific endeavour to generate wax and honey is referred to as \_\_\_\_\_.

**2581881**

मधुमक्खी पालन एक व्यवसाय के रूप में और मोम और शहद उत्पन्न करने के वैज्ञानिक प्रयास को \_\_\_\_\_ कहा जाता है।

A

**Silviculture**

**सिल्विकल्चर (Silviculture)**

**Sericulture**

B

**सेरीकल्चर (Sericulture)**

**Apiculture**

C

**एपीकल्चर (Apiculture)**

**Pisciculture**

D

**पिस्सीकल्चर (Pisciculture)**

Correct Ans : C

Subject : **Zoology**

Q.No: 58 What is a free-living, anaerobic bacterium that fixes nitrogen?

**2581890**

नाइट्रोजन का स्थिरीकरण (fixes) करने वाला मुक्त-जीवित (free-living), अवायवीय (anaerobic) जीवाणु क्या है?

**Rhizobium**

A

**राइजोवियम**

**Streptococcus**

B

**स्ट्रेप्टोकोकस**

**Azotobacter**

C

**एज़ोटोबैक्टर**

**Clostridium**

D

**क्लोस्ट्रीडियम**

Correct Ans : D

Subject : **Zoology**

Q.No: 59 Compared to normal cells, cancer cells are more severely damaged by radiation because\_\_\_\_\_.

**2581892**

सामान्य कोशिकाओं की तुलना में, कैंसर कोशिकाएं विकिरण (radiation) से अधिक गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त होती हैं क्योंकि \_\_\_\_\_।

A

**Cancer cells do not frequently multiply.**

कैंसर कोशिकाएं अक्सर गुणा नहीं करती हैं

**Cancer cells lack access to nutrients.**

B

कैंसर कोशिकाओं में पोषक तत्वों की पहुंच नहीं होती है

**Cancer cells have different structures.**

C

कैंसर कोशिकाओं में विभिन्न संरचनाएं होती हैं

**Cancerous cells divide quickly.**

D

कैंसर कोशिकाएं तेजी से विभाजित होती हैं

Correct Ans : D

Subject : **Zoology**

Q.No: 60 Who is credited for starting the "green revolution"?

**2581902**

"हरित क्रांति" शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है?

**Vergheze Kurien**

A

वर्गीज कुरियन

**Neel Kranti**

B

नील क्रांति

**Napoleon Bonaparte**

C

नेपोलियन बोनापार्ट

**Norman Borlaug**

D

नॉर्मन बोरलॉग

Correct Ans : D

Subject : **Zoology**

Q.No: 61 What is a key goal of biotechnology in the field of agriculture?

**2581903**

कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का प्रमुख लक्ष्य क्या है?

A **to decrease seed number**

बीज संख्या को कम करने के लिए

**to produce pest-resistant varieties of plants**

**B**

पौधों की कीट प्रतिरोधी किस्मों का उत्पादन करने के लिए

**to increase phosphorus, nitrogen production**

**C**

फास्फोरस, नाइट्रोजन उत्पादन बढ़ाने के लिए

**to reduce the number of plants**

**D**

पौधों की संख्या को कम करने के लिए

Correct Ans : **B**

Subject : **Zoology**

Q.No: 62 What kind of bacterium produces Bt toxin?

**2581904**

किस प्रकार का जीवाणु बीटी विष उत्पन्न करता है?

**Bacillus thuringiensis**

**A**

बेसिलस थुरिंगिएन्सिस

**Bacillus anthracis**

**B**

बेसिलस एन्थ्रेसीस

**Bacillus thermophilus**

**C**

बेसिलस थर्मोफिलस

**Bacillus subtilis**

**D**

बेसिलस सबटिलिस

Correct Ans : **A**

Subject : **Zoology**

Q.No: 63 What is the name for the terminal branching ends of axons?

**2581912**

अक्षतंतु (axons) के अंतिम शाखाओं वाले सिरों (terminal branching ends) का नाम क्या है?

**Synaptic knobs**

**A**

सिनैटिक नॉब्स

**B**

**Synaptic vesicles**

सिनैटिक वेसिकल्स

**Dendrons**

C

डेंड्रोन

**Dendrites**

D

डेंड्राइट्स

Correct Ans : A

Subject : Zoology

Q.No: 64 What organelle helps in sperm penetration of the ovum?

**2581913**

कौन सा अंग अंडाणु के शुक्राणु प्रवेश में (sperm penetration of the ovum) मरम्म करता है?

**Acrosome**

A

एक्रोसोम

**Zona pellucida**

B

ज़ोना पेलुसीडा

**Megalis**

C

मेगालिस

**None of the given option**

D

दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं

Correct Ans : A

Subject : Zoology

Q.No: 65 How many autosomes are present in a primary human spermatocyte?

**2581914**

एक प्राथमिक मानव शुक्राणु (spermatocyte) में कितने ऑटोसोम मौजूद होते हैं?

**34**

A

**34**

B

**44**

**44**

**54**

C

**54**

**33**

D

**33**

Correct Ans : **B**

Subject : **Zoology**

Q.No: 66 Which of the following experiments has mimicked circumstances allegedly existing on the early earth?

**2581936**

निम्नलिखित में से किस प्रयोग ने प्रारंभिक पृथ्वी पर कथित रूप से विद्यमान परिस्थितियों की नकल की है?

**Hershey-Chase experiment**

A

हर्शे-चेस प्रयोग

**Geiger-Marsden experiment**

B

गीगर-मार्सडेन प्रयोग

**Miller-Urey experiment**

C

मिलर-उरे प्रयोग

**Schiehallion experiment**

D

शिहौलियन प्रयोग

Correct Ans : **C**

Subject : **Zoology**

Q.No: 67 Which condition does Lamarckism explain?

**2581937**

लैमार्कवाद किस स्थिति की व्याख्या करता है?

**How giraffes got their long neck**

A

जिराफों को उनकी लंबी गर्दन कैसे मिली

B

**How humans lost their tail**

मनुष्य ने अपनी पूँछ कैसे खो दी

**How humans became bipedal**

C

मनुष्य कैसे द्विपाद (bipedal) बन गए

**All of the given option**

D

दिए गए सभी विकल्प

Correct Ans : D

Subject : Zoology

Q.No: 68 What is the most effective way for carbon dioxide transportation in the human body?

**2581938**

मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड परिवहन के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है?

**Bicarbonate**

A

बाइकार्बोनेट

**Carbide**

B

कार्बाइड

**Amylase**

C

एमाइलेज

**None of the given option**

D

दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं

Correct Ans : A

Subject : Zoology

Q.No: 69 Children who have thymus damage may experience \_\_\_\_\_?

**2581948**

जिन बच्चों को थाइमस क्षति होती है, वे \_\_\_\_\_ का अनुभव कर सकते हैं?

**Loss of an antibody-mediated immunity**

A

एंटीबॉडी-मध्यस्थता प्रतिरक्षा (antibody-mediated immunity) का नुकसान

**Reduction in stem cell production**

B

स्टेम सेल उत्पादन में कमी

C

**Deafness**

**बहरापन**

**Loss of cell-mediated immunity**

**D**

**कोशिका-मध्यस्थ प्रतिरक्षा (cell-mediated immunity) का नुकसान**

Correct Ans : **D**

Subject : **Zoology**

Q.No: 70 What hormone is responsible for milk secretion following childbirth?

**2581949**

बच्चे के जन्म के बाद दूध के साव (milk secretion) के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है?

**Insulin**

**A**

**इंसुलिन**

**Prolactin**

**B**

**प्रोलैक्टिन**

**Lactogen**

**C**

**लैक्टोजेन**

**None of the given option**

**D**

दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं

Correct Ans : **B**

Subject : **Zoology**

Q.No: 71 What disease is brought on by a lack of hormones produced by the adrenal cortex?

**2581951**

अधिवृक्क प्रांतस्था (adrenal cortex) द्वारा उत्पादित हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है?

**Acromegaly**

**A**

**एक्रोमेगाली**

**Graves' disease**

**B**

**कब्र रोग (Graves' disease)**

**C**

**Addison's disease**

एडिसन रोग

**Diabetes Insipidus**

D

डायबिटीज इन्सिपिडस

Correct Ans : C

Subject : Zoology

Q.No: 72 Which one of these is not a result of the release of catecholamines?

**2581952**

इनमें से कौन कैटेकोलामाइंस की रिहाई (release of catecholamines) का परिणाम नहीं है?

**Piloerection**

A

पायलोएक्शन (Piloerection)

**Pupillary dilation**

B

प्लूपिलरी फैलाव (Pupillary dilation)

**Glycogen formation**

C

ग्लाइकोजन गठन

**Increase in heart rate**

D

हृदय गति में वृद्धि

Correct Ans : C

Subject : Zoology

Q.No: 73 A series of metabolic processes known as the Krebs-Henseleit cycle occur in the \_\_\_\_\_ ?

**2581953**

क्रेब्स-हेन्सेलिट चक्र के रूप में जानी जाने वाली चयापचय प्रक्रियाओं (metabolic processes) की एक श्रृंखला \_\_\_\_\_ में होती है?

**Brain**

A

एक मसिताष्क

**Liver**

B

लीवर

C

**Urinary bladder**

**मूत्र मूत्राशय**

**Lungs**

D

फेफड़े

Correct Ans : **B**

Subject : **Zoology**

Q.No: 74 Humans excrete nitrogenous wastes through their urine, what is it?

**2581954**

मनुष्य अपने मूत्र के माध्यम से नाइट्रोजनयुक्त अपशिष्टों (wastes) को उत्सर्जित करता है, यह क्या है?

**Trimethylamine oxide**

A

ट्राइमेथिलैमाइन ऑक्साइड

**Ammonia**

B

अमोनिया

**Uric Acid**

C

यूरिक एसिड

**Urea**

D

यूरिया

Correct Ans : **D**

Subject : **Zoology**

Q.No: 75 The largest sesamoid bone in the human body is \_\_\_\_\_.

**2581956**

मानव शरीर में सबसे बड़ी सीसमॉयड हड्डी \_\_\_\_\_ है।

**Pelvis**

A

पेल्विस (**Pelvis**)

**Femur**

B

फेमुर (**Femur**)

**Ulna**

C

उल्ना (**Ulna**)

D      **Patella**

**पटेला (Patella)**

Correct Ans : **D**

Subject : **Zoology**

Q.No: 76    **2403974** The mass of an O<sub>2</sub> is about 16 times that of H<sub>2</sub>. At room temperature the rms speed of O<sub>2</sub> is v. The rms speed of the H<sub>2</sub> at the same temperature will be-

O<sub>2</sub> का द्रव्यमान H<sub>2</sub> के द्रव्यमान से 16 गुना है, सामान्य ताप पर O<sub>2</sub> का वर्ग माध्य मूल v है तो समान ताप पर H<sub>2</sub> का वर्ग माध्य मूल बेग होगा-

$$\frac{v}{16}$$

A

$$\frac{v}{16}$$

$$\frac{v}{4}$$

B

$$\frac{v}{4}$$

**4v**

C

**4v**

**16 v**

D

**16 v**

Correct Ans : **C**

Subject : **Physics II**

Q.No: 77    **2403999** The mean square speed of the molecular of a gas at absolute temperature T is proportional to-

गैस के अणुओं का परम ताप T पर वर्ग माध्य मूल समानुपाती होता है-

$$\frac{1}{T}$$

A

$$\frac{1}{T}$$

$$\sqrt{T}$$

**B**

$$\sqrt{T}$$

**T**

C

**T**

$$T^2$$

D

$$T^2$$

Correct Ans : **B**

Subject : **Physics II**

Q.No: 78 What is the S.I. unit of magnetic dipole moment?  
**2404088**

चुंबकीय द्विधृत आघूर्ण की S.I इकाई है-

$$Am^{-1}$$

A

$$Am^{-1}$$

$$Am^2$$

**B**

$$Am^2$$

$$mA^{-1}s$$

C

$$mA^{-1}s$$

$$mA^{-2}s$$

D

$$mA^{-2}s$$

Correct Ans : **B**

Subject : **Physics II**

Q.No: 79 A voltmeter have resistance 100 ohm and range is 10V. Its range may be increase up to 100 volt by adding **2404092** resistances:

एक वोल्टमीटर का प्रतिरोध 100 ओम है और परास 10 वोल्ट है। इसकी परास बढ़ाकर 100 वोल्ट कितना प्रतिरोध जोड़कर किया जा सकता है?

**900 ohm in series**

A

शृंखला में **900** ओम

**900 ohm in parallel**

B

समानांतर में **900** ओम

**900 ohm in series and parallel**

C

शृंखला और समानांतर में **900** ओम

**950 ohm in series**

D

शृंखला में **950** ओम

Correct Ans : **A**

Subject : **Physics II**

Q.No: 80 Motion of molecule is-

**2404102**

गैस के अणुओं की गति होती है-

**One dimensional**

A

एकविमीय

**Two dimensional**

B

द्विविमीय

**Three dimensional**

C

त्रिविमीय

**Only up and down**

D

केवल ऊपर नीचे

Correct Ans : **C**

Subject : **Physics II**

Q.No: 81 If a thin prism has an angle  $10^\circ$  and  $\mu = 1.5$  then angle of deviation produced by it will be-  
**2404123**

यदि पतले प्रिज्म का कोण  $10^\circ$  तथा  $\mu = 1.5$  हो तो उसके द्वारा उत्पन्न विचलन कोण होगा-

$10^\circ$

A

$10^\circ$

$15^\circ$

B

$15^\circ$

$6.6^\circ$

C

$6.6^\circ$

$5^\circ$

D

$5^\circ$

Correct Ans : D

Subject : **Physics II**

Q.No: 82 A bullet of mass 0.05 kg is fired with a speed of 200 m/s on a mud wall of thickness 0.02 m. The bullet emerges  
**2404123** with only 10 percent of its initial kinetic energy . Find the final speed of the bullet.

0.02 मीटर मोटाई की मिट्टी की दीवार पर 0.05 किग्रा द्रव्यमान की एक गोली 200 मीटर/सेकेंड की गति से दागी जाती है। गोली अपनी प्रारंभिक ऊर्जा के केवल 10 प्रतिशत के साथ सक्रिय रहती है। गोली की अंतिम गति ज्ञात कीजिए।

$51.6 \text{ m/sec}$

A

$51.6 \text{ m/sec}$

$67.4 \text{ m/sec}$

B

$67.4 \text{ m/sec}$

$63.2 \text{ m/sec}$

C

$63.2 \text{ m/sec}$

D

$73.2 \text{ m/sec}$

73.2 m/sec

Correct Ans : **C**

Subject : **Physics II**

Q.No: 83  
**2410189** What is the relation between critical angle  $i_c$  and refractive index of dense medium  $\mu$  is-

क्रांतिक कोण  $i_c$  तथा सघन माध्यम के अपवर्तनांक  $\mu$  में संबंध है-

$$\sin i_c = \mu$$

A

$$\sin i_c = \mu$$

$$\sin i_c = \frac{1}{\mu}$$

B

$$\sin i_c = \frac{1}{\mu}$$

$$\tan i_c = \mu$$

C

$$\tan i_c = \mu$$

$$\cos i_c = \mu$$

D

$$\cos i_c = \mu$$

Correct Ans : **B**

Subject : **Physics II**

Q.No: 84 Which one of the following is the torque and energy dimensional formula?  
**2581727**

निम्नलिखित में से कौन सा टॉर्क और एनर्जी डायमेंशनल फॉर्मूला है?

$$[ML^2T^{-2}] \text{ and } [ML^2T^2]$$

A

$$[ML^2T^{-2}] \text{ और } [ML^2T^2]$$

B       $[ML^{-3}T^{-2}] \text{ and } [MLT^{-2}]$

[ $ML^{-3}T^{-2}$ ] और [ $MLT^{-2}$ ]

[ $ML^2T^{-2}$ ] and [ $MLT^{-2}$ ]

C

[ $ML^2T^{-2}$ ] और [ $MLT^{-2}$ ]

[ $MLT^2$ ] and [ $ML^2T^2$ ]

D

[ $MLT^2$ ] और [ $ML^2T^2$ ]

Correct Ans : **A**

Subject : **Physics II**

Q.No: 85 The energy that a body possesses as a result of its motion is referred to as \_\_\_\_\_.  
**2581730**

किसी वस्तु में अपनी गति के परिणामस्वरूप जो ऊर्जा होती है, उसे \_\_\_\_\_ कहा जाता है।

**Kinetic energy**

A

**गतिज ऊर्जा (Kinetic energy)**

**Potential energy**

B

**स्थितिज ऊर्जा (Potential energy)**

**Total energy**

C

**कुल ऊर्जा (Total energy)**

**Motion energy**

D

**गति ऊर्जा (Motion energy)**

Correct Ans : **A**

Subject : **Physics II**

Q.No: 86 How many Ergs do you get from one Joule?

**2581731**

एक जूल से आपको कितना एर्ग प्राप्त होता हैं?

**10**

A

**10**

B  **$10^4$**

$10^4$

$10^6$

C

$10^6$

$10^7$

D

$10^7$

Correct Ans : D

Subject : Physics II

Q.No: 87 What determines the average kinetic energy of gas molecules?

**2581734**

गैस के अणुओं (molecules) की औसत गतिज ऊर्जा (average kinetic energy) क्या निर्धारित करती है?

**Nature of the gas**

A

गैस की प्रकृति

**Volume**

B

मात्रा

**Mass**

C

द्रव्यमान

**Temperature**

D

तापमान

Correct Ans : D

Subject : Physics II

Q.No: 88 What is the ideal gas's average molecular velocity?

**2581735**

आदर्श गैस का औसत आणविक वेग (ideal gas average molecular velocity) क्या है?

**Zero**

A

शून्य

B

**Infinity**

**अनंत**

**Constant**

C

**स्थिर**

**Unstable**

D

**अस्थिर**

Correct Ans : **A**

Subject : **Physics II**

Q.No: 89 Containers for cooking gas are kept in a lorry that travels at a constant speed. The internal gas molecules' **2581736** temperature will.

रसोई गैस के कंटेनरों को एक लॉरी में रखा जाता है जो एक स्थिर गति से चलती है। आंतरिक गैस अणुओं का तापमान \_\_\_\_\_।

**Increase**

A

**बढ़ेगा**

**Decrease**

B

**घटेगा**

**Decreases for some, while the increase for others**

C

**किसी के लिए घटेगा तो किसी के लिए घटेगा**

**Remain the same**

D

**जैसे था वैसे ही रहेगा**

Correct Ans : **D**

Subject : **Physics II**

Q.No: 90 Which of the following lights most deviates when it strikes a prism?

**2581743**

निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश प्रिज्म से टकराने पर सबसे अधिक विचलित (deviates) होता है?

**Red Light**

A

**लाल बत्ती**

B

**Violet Light**

वायलेट लाइट

**Green Light**

C

हरी बत्ती

**Red Light and Green Light**

D

लाल बत्ती और हरी बत्ती

Correct Ans : **B**

Subject : **Physics II**

Q.No: 91 Which of the following optical phenomena causes a mirage?

**2581744**

निम्नलिखित में से कौन सी ऑप्टिकल घटना मृगतृष्णा (mirage) का कारण बनती है?

**Total internal reflection**

A

कुल आंतरिक प्रतिबिंब (**Total internal reflection**)

**Refraction of light**

B

प्रकाश का अपवर्तन (**Refraction of light**)

**Reflection of light**

C

प्रकाश का परावर्तन (**Reflection of light**)

**Polarisation of light**

D

प्रकाश का ध्रुवीकरण (**Polarisation of light**)

Correct Ans : **A**

Subject : **Physics II**

Q.No: 92 The formula for the speed of light in a vacuum is:

**2581748**

निर्वात (vacuum) में प्रकाश की गति का सूत्र है-

$3 \times 10^8$  m/s

A

$3 \times 10^{-8}$  m/s

B

$3 \times 10^8$  km/s

$3 \times 10^8$  km/s

$3 \times 10^8$  m/s

C

$3 \times 10^8$  m/s

**None of the given option**

D

दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं

Correct Ans : C

Subject : Physics II

Q.No: 93 The \_\_\_\_\_ of sunlight by water drops in the atmosphere is illustrated as the rainbow.  
**2581749**

वायुमंडल में पानी की बूँदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का \_\_\_\_\_ इंद्रधनुष के रूप में वित्रित किया गया है।

**Refraction**

A

**अपवर्तन (Refraction)**

**Scattering**

B

**बिखरने (Scattering)**

**Reflection**

C

**प्रतिबिंब (Reflection)**

**Dispersion**

D

**फैलाव (Dispersion)**

Correct Ans : D

Subject : Physics II

Q.No: 94 When hydrogen atoms are excited from their ground state to the state of principal quantum number 4, how many  
**2581754** different spectral lines are visible?

जब हाइड्रोजन परमाणु अपनी मूल अवस्था से मुख्य कांटम संख्या 4 की अवस्था में उत्तेजित होते हैं, तो कितनी भिन्न वर्णक्रमीय रेखाएँ (spectral lines) दिखाई देती हैं?

A

**2**

**2**

**3**

B

**3**

**6**

C

**6**

**5**

D

**5**

Correct Ans : **C**

Subject : **Physics II**

Q.No: 95 What types of bonds are found in semiconductors?

**2581756**

अर्धचालक (semiconductors) में किस प्रकार के बंधन पाए जाते हैं?

**Monovalent**

A

**मोनोवैलेन्ट (Monovalent)**

**Binovalement**

B

**द्विसंयोजक (Binovalement)**

**Trivalent**

C

**त्रिसंयोजक (Trivalent)**

**Covalent**

D

**सहसंयोजक (Covalent)**

Correct Ans : **D**

Subject : **Physics II**

Q.No: 96 Which of the following processes has the highest thermal conduction?

**2581771**

निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में उच्चतम तापीय चालकता (highest thermal conduction) है?

**Combustion**

A

**दहन (Combustion)**

B

**Radiation**

**विकिरण (Radiation)**

**Convection**

C

**कंचेक्षण**

**Conduction**

D

**प्रवाहकत्व (Conduction)**

Correct Ans : **B**

Subject : **Physics II**

Q.No: 97 The statement that "heat cannot naturally flow from a body at lower temperature to a body at greater  
**2581779** temperature" follows.

यह कथन कि "गर्मी स्वाभाविक रूप से कम तापमान वाले वस्तु से अधिक तापमान वाले वस्तु में प्रवाहित नहीं हो सकती है" \_\_\_\_\_ का प्रकार है।

**conservation of momentum**

A

**गति का संरक्षण (conservation of momentum)**

**first law of thermodynamics**

B

**ऊष्मप्रैगिकी (thermodynamics) का पहला नियम**

**second law of thermodynamics**

C

**ऊष्मप्रैगिकी का दूसरा नियम**

**conservation of mass**

D

**मास का संरक्षण (conservation of mass)**

Correct Ans : **C**

Subject : **Physics II**

Q.No: 98 What is a metal's dielectric constant?

**2581780**

धातु का परावैद्युत नियतांक (metal's dielectric constant) क्या होता है?

**-1**

A

**-1**

B      **0**

**0**

**Infinite**

**C**

अनंत

**1**

**D**

**1**

Correct Ans : **C**

Subject : **Physics II**

Q.No: 99 The value of open space's electric permittivity is:

**2581784**

खुले स्थान की विद्युत पारगम्यता (electric permittivity) का मान है-

$$9 \times 10^9 \text{ NC}^2/\text{m}^2$$

**A**

$$9 \times 10^9 \text{ NC}^2/\text{m}^2$$

$$8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{Nm}^2$$

**B**

$$8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{Nm}^2$$

$$8.85 \times 10^{-12} \text{ Nm}^2/\text{C}^2 \text{ sec}$$

**C**

$$8.85 \times 10^{-12} \text{ Nm}^2/\text{C}^2 \text{ sec}$$

$$9 \times 10^9 \text{ C}^2/\text{Nm}^2$$

**D**

$$9 \times 10^9 \text{ C}^2/\text{Nm}^2$$

Correct Ans : **B**

Subject : **Physics II**

Q.No: 100 Which of the following substances exhibits the greatest magnetic susceptibility?

**2581796**

निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे बड़ी चुंबकीय संवेदनशीलता (magnetic susceptibility) प्रदर्शित करता है?

**ferromagnetic substance**

**A**

लौहचुम्बकीय (**ferromagnetic**) पदार्थ

**Paramagnetic material**

B

अनुचुंबकीय (**Paramagnetic**) सामग्री

**Diamagnetic material**

C

प्रतिचुंबकीय (**Diamagnetic**) सामग्री

**None of the given option**

D

दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं

Correct Ans : **A**

Subject : **Physics II**